



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 6—सितम्बर 12, 2008 (भाद्रपद 15, 1930)

No. 36] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 6—SEPTEMBER 12, 2008 (BHADRA 15, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 22 अगस्त 2008

सं. डीपी/पर्स.1/2008/133/3/1 2005--श्री एस. एस. हरवालकर ने अधिवर्तिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 31.07.2008 (अपरार्ह) से पुलिस अधीक्षक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

अनुग्राह

पुलिस अधीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 26 अगस्त 2008

सं. डीपी/पर्स.1/2008/136/3/29/2008--राष्ट्रपति ने श्री हेमंत प्रियदर्शी, भा. पु. सेवा (उजस्थान : 1992) को 07.08.2008 (पूर्वाह्न) से 5 वर्ष की अवधि अर्थात् 06.08.2013 तक के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस उपमहानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

अनुग्राह

पुलिस अधीक्षक (कार्मिक)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. डीपी/पर्स.1/2008/135/ए-20014/1/83--श्री ठाकुरी ने अधिवर्तिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 31.07.2008 (अपरार्ह) से अपर विधि सलाहकार, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

एस. सचदेव

प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक)

गृह मंत्रालय

न्यायालयिक विज्ञान निदेशालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 19 अगस्त 2008

सं. डी.पी.1/2006-प्रशा.(एफ.एस.)-राष्ट्रपति, श्री मौलिक लियान पाहटे का महायक सरकारी परीक्षक प्रश्नास्पद प्रलेख के पद पर न्यायालयिक विज्ञान निदेशालय के अधीन कार्यालय भर्तवारी परीक्षक प्रश्नास्पद प्रलेख, कोलकता में दिनांक 29.05.2008 (पूर्वाह्न) से वेतनमान रु. 1,00,000-275-3,500/- में स्थानापन्न आधार पर नियुक्त करते हैं।

डी. एस. एस. राव

निदेशक (एफ. एस.)

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 21 अगस्त 2008

सं. डी.एच.6/08 (कार्यक्रम) 1--श्री एन. गजानन्दन (इसका 4847), उप कमिश्नर, 103 पन-1, बरौण्डा, का कॉन्टैक्ट सेलैट्रीट का पत्र संख्या 267/2007 (डी.ओ. नं. 10) 1385 दिनांक 06.08.2008 के अनुसार कॉन्टैक्ट सेलैट्रीट में सेलैट्रीट का के नद पर प्रतिनियुक्त पर 04 वर्षों के लिए चयन होने की प्रत्यक्षता अधिकारी को सहाई दिनांक 26.07.2008 (अपरह्र.) से कोचिन सेलैट्रीट के नियुक्त पर रहेगी।

रमेश चन्द्र
पुलिस उप महासंचालक (प्रशिक्षण)

महानिदेशालय
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 20 अगस्त 2008

सं. डी.16003/1100 (कार्यक्रम) 2/1100 प्रतिनियुक्ति में मूल संदर्भ में प्रत्यावर्तन होने पर, श्री अजय कुमार, भा.पु.से. (एमसी 88), उप महानिदेशक, केन्द्रीय से दिनांक 11.07/2008 (अपरह्र.) को उप महानिदेशक, कोशिका इकाई कोचिन बोधन (अपरह्र.) को पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

डॉ. अनन्त
महानिदेशक/कोशिका

आयुक्त, प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
अधिक एवं सेवा मंत्रालय
आयुक्त लेखा तथा सेवा परीक्षा विभाग,

नई दिल्ली-110002, दिनांक 21 अगस्त 2008

सं. ए.ए.सी. 1/अध्यापक 1/2008/क लेखा/2002/68/267 प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा अधिक एवं सेवा मंत्रालय, नई दिल्ली, निर्मललिखित अनुप्रा, अध्यापकों को उनके नाम की जाते रहे हैं नई दिनांक को रुपये 2,450/-25,11,500/- का वार्षिक वेतन में अंतिम आयु पर आयुई महापद लेखापरीक्षा अधिकारी (वर्ग 'ख') परीक्षाओं में हटा में परीक्षा होने की अवधि में है।

| क्र. सं. | पदोन्नति की तिथि |
|--------------------|------------------|
| 1. श्री ए. अध्यापक | 28.03.2008 |
| 2. श्री ए. अध्यापक | 28.03.2008 |
| 3. श्री ए. अध्यापक | 28.03.2008 |

रमेश चन्द्र

रक्षा लेखा विभाग

कार्यालय रक्षा लेखा महासंचालक

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 जुलाई 2008

सं. प्रशा.-1/1402/1(XIV) निर्मललिखित परीक्षाधीनो को प्रत्येक के समक्ष दर्शाई गई तारीखों से परीक्षा सेवा लेखा सेवा के कनिष्ठ काल मान में पुष्टि कर दी गई है।

| क्र. सं. | नाम | पुष्टि की तिथि |
|----------|------------------|----------------|
| | सर्वश्री | |
| 1. | देश प्रकाश अमनाथ | 10.01.2007 |
| 2. | नवरुन धर | 01.08.2007 |
| 3. | संगीत | 01.08.2007 |
| 4. | अलराम कुनार | 16.11.2007 |
| 5. | एम. एस. सर्वनाथ | 01.08.2007 |
| 6. | पुनीत शर्मा | 22.08.2007 |
| 7. | संजय कुमार | 02.01.2008 |
| 8. | टी. कवितान | 26.12.2007 |
| 9. | बी. रमेश | 26.12.2007 |
| 10. | रमेश के. सीमा | 26.12.2007 |

मुभाप मंडल
रक्षा सेवा सहायक महानिर्देशक (अपरह्र.)

सं. प्रशा. 1/1462/5(XIV) रक्षा सेवा महासंचालक नई दिल्ली श्री सत्येन्द्र नाथ दास को 01.07.2008 को हुए दुःखद निधन को शोक पूर्वक अभिमुख पर है। तदनुसार अधिकारी को 07 जून, 2008 (पूर्वा.) से रक्षा सेवा विभाग के संरक्षण में हटा दिया गया है।

मुभाप मंडल
रक्षा सेवा सहायक महानिर्देशक (अपरह्र.)

सं. प्रशा.-1/1462/5(XIV) भारतीय रक्षा सेवा के अधिकारी श्री के. ए. मथई, डॉ. 01.07.2008 (पूर्वा.) से सहायक सेवा से अवैधक सेवा निवृत्ति पर चले। रक्षा सेवा विभाग के संरक्षण से हटा दिया गया है तदनुसार 1. 2008 में रक्षा सेवा की स्थानान्तरित कर दिया गया है।

मुभाप मंडल

दिनांक 18 जुलाई 2008

सं. प्रशा.-1/1172/1/XX/2008-09--राष्ट्रपति, भारतीय रक्षा लेखा सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उक्त सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (चैतनमान 18,400-500-22,400/- रुपये) में उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तारीख से तथा आगामी आदेशों पर्यन्त सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

| क्र. अधिकारी का नाम सं. | वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में नियुक्ति की तारीख | अभ्युक्तियां |
|--------------------------|--|---------------------|
| सर्वश्री | | |
| 1. सरोज कुमार | 16.06.2008 | |
| 2. जेड बी. एस. प्रसाद | 16.06.2008 | |
| 3. शरत शर्मा | 16.06.2008 | |
| 4. पी. रवि कुमार | 12.06.2008 | |
| 5. मयंक शर्मा | 16.06.2008 | |
| 6. ए. वी. राव | 11.06.2008 | प्रोफार्मा पदोन्नति |
| 7. एस. एस. पेन्नाकर | 16.06.2008 | |
| 8. (श्रीमती) आरती भटनागर | 23.06.2008 | प्रोफार्मा पदोन्नति |
| 9. राकेश कुमार | 23.06.2008 | |
| 10. आर. के. अरोड़ा | 30.06.2008 | |
| 11. विश्वजीत सहाय | 11.06.2008 | |

सुभाष मंडल
रक्षा लेखा सहायक महानियंत्रक (प्रशासन)

दिनांक 23 जुलाई 2008

सं. प्रशा.-1/1424/4/XXV--राष्ट्रपति, निम्नलिखित वरिष्ठ लेखा अधिकारियों (समूह "ख") (रु. 8,000-275-13,500/-) को, भारतीय रक्षा लेखा सेवा के नियमित संवर्ग में, इसी सेवा के कनिष्ठ काल मान (रु. 8,000-275-13,500/-) में उनके नामों को सामने दर्शाई गई तारीखों से तथा आगामी आदेशों पर्यन्त सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

| क्र. सं. | अधिकारी का नाम | पदोन्नति की तारीख | अभ्युक्तियां |
|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| सर्व/श्री | | | |
| 1. | टी. एल. श्रीनिवास राव | 08.05.2008 | |
| 2. | नरेश चंद्र गुप्ता | 28.02.2008 | प्रोफार्मा पदोन्नति |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------------|------------|---|---|
| 3. जोसेफ ह्यूक | 28.02.2008 | | |
| 4. टी. ए. नारायण | 28.02.2008 | | |
| 5. जे. पी. खर्मा | 29.02.2008 | | |
| 6. जुगाजनी गंगोपाध्याय | 03.03.2008 | | |
| 7. पी. वी. वैद्यनाथन | 07.03.2008 | | |
| 8. के. के. कश्यप | 12.03.2008 | | |
| 9. वी. राजगोपालन | 28.02.2008 | | |
| 10. एम. एस. जैन | 30.06.2008 | | |

सुभाष मंडल
रक्षा लेखा सहायक महानियंत्रक (प्रशासन)

नई दिल्ली-110605, दिनांक 31 जुलाई 2008

सं. प्रशा.-1/1467/5/III(जी)--भारतीय रक्षा लेखा सेवा के नीचे दर्शाए गए ग्यारह (11) अधिकारियों को, जिन्होंने अधिवर्षिता की आयु पूरी कर ली है, सेवानिवृत्त कर दिया गया है तथा कॉलम (4) में दर्शाई गई तारीखों को रक्षा लेखा विभाग के संख्याबल से हटा दिया गया है तथा तदनुसार प्रत्येक के समक्ष कॉलम 5 में दर्शाई गई तारीख से पेंशन स्थापना की स्थानांतरित कर दिया गया है :-

| क्र. अधिकारी का नाम सं. | जन्म की तारीख | सेवानिवृत्ति की तारीख | संख्याबल से हटाए जाने की तारीख |
|---------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|
| सर्वश्री | | | |
| 1. डी. एस. मीणा | 01.07.1948 | 30.06.2008 | 01.07.2008 |
| 2. एस. बी. बुद्धराव | 02.06.1948 | 30.06.2008 | 01.07.2008 |
| 3. पी. एच. काले | 01.07.1948 | 30.06.2008 | 01.07.2008 |
| 4. ए. डी. मेथाम | 14.06.1948 | 30.06.2008 | 01.07.2008 |
| 5. के. रंगराजू | 17.06.1948 | 30.06.2008 | 01.07.2008 |
| 6. जे. प्रकाश राव | 01.07.1948 | 30.06.2008 | 01.07.2008 |
| 7. जे. के. रत्नोगे | 13.06.1948 | 30.06.2008 | 01.07.2008 |
| 8. एस. ए. मारियादास | 13.06.1948 | 30.06.2008 | 01.07.2008 |
| 9. श्रीमती एम. के. भर्गवा | 30.06.1948 | 30.06.2008 | 01.07.2008 |
| 10. के. उनीकुमान | 01.07.1948 | 30.06.2008 | 01.07.2008 |
| 11. पी. वैकटेश्वरन् | 30.06.1948 | 30.06.2008 | 01.07.2008 |

सुभाष मंडल
रक्षा लेखा सहायक महानियंत्रक (प्रशासन)

दिनांक 20 अगस्त 2008

सं. 6(2487)/2008-प्रश. 495 -- भारत सरकार, परमाणु ऊर्जा विभाग (परुवि) के प्रधान सलाहकार एतद्वारा भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुंबई के सहायक कार्मिक अधिकारी (वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/-), श्री माथ्यू एम. जोन को परमाणु ऊर्जा विभाग सचिवालय, मुंबई में रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में दिनांक 11 अगस्त 2008 के पूर्वार्द्ध से अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी. पी. माधवन कुट्टी
अवर सचिव

परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद्

मुंबई-400094, दिनांक 19 अगस्त 2008

सं. परुनिप/प्रश./जी/229/386 -- अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद्, श्री शेखर जी. चव्हाण, सहायक परमाणु ऊर्जा विभाग को दिनांक 08 अगस्त, 2008 को पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद् में सहायक कार्मिक अधिकारी (वेतनमान 6,500-200-10,500/- रुपये) के रूप में नियमित आधार पर कार्य करने हेतु नियुक्त करते हैं।

बी. एम. थॉमस
प्रशासन-अधिकारी-I

इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र

कल्पाक्कम-603102, दिनांक 4 अगस्त 2008

सं. इंगांपअके/पीएफ/6752/2008-भर्ती--राष्ट्रपति महोदया, इस विभाग के इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कल्पाक्कम में श्री संदीप सिंह को अस्थायी क्षमता पर अगले आदेश तक इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कल्पाक्कम में वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड-बी के पद पर प्रारम्भिक वेतनमान रु. 10,650/- पर वेतनमान रु. 10,000-325-15,200/- के वेतनमान पर दिनांक 17.06.2008 के अपराह्न से नियुक्त करती हैं।

बी. दयालन
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

अंतरिक्ष विभाग

विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र

तिरुवनंतपुरम-695022, दिनांक 13 अगस्त 2008

सं. वीएसएससी/स्था/एफ/1(17)--निर्वाहक, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) तिरुवनंतपुरम, एतद्वारा श्रीमती कुमारी लेखा. आर.

को वैयक्तिक सचिव के रूप में पदोन्नति पर रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में 05.08.2008 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेश होने तक नियुक्त करते हैं।

जी. देवदासन
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी

महानिदेशक, नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 25 अगस्त 2008

सं. ए-32013/14/2008/स्थापना-2--राष्ट्रपति, महानिदेशक, नागर विमानन का कार्यालय के श्री जे. एस. रावत, निदेशक (प्रचालन), को दिनांक 18 अगस्त 2008 (पूर्वाह्न) से उपमहानिदेशक के पद पर नियमित आधार पर अगले आदेशों तक 16,400-450-20,000/- रुपये के वेतनमान में नियुक्त करती हैं।

मीना शर्मा
उपनिदेशक, प्रशासन

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

कार्यालय, रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स अरावली बिल्डकोन प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में

जयपुर-302006, दिनांक 28 जुलाई 2008

सं. आर.ओ.सी./560/16177/1203--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स अरावली बिल्डकोन प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. सी. मिश्रा
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स वेल्टिकन फिन्केप प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में

जयपुर-302006, दिनांक 21 जुलाई 2008

सं. आर.ओ.सी./560/12199/1223--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स वेल्टिकन फिन्केप प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

आर. सी. मिश्रा
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स मैकलेण्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में
अध्याप 302006, दिनांक 6 अगस्त 2007

सं. आर.ओ.सी./560/19340/1317 --कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स मैकलेण्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विनिर्दिष्ट हो गई।

आर. सी. मिश्रा
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स मेवात कार्पेट प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के सम्बन्ध में
अध्याप 302006, दिनांक 7 अगस्त 2007

सं. आर.ओ.सी./560/26049/1322--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स मेवात कार्पेट प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विनिर्दिष्ट हो गई।

आर. सी. मिश्रा
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के सम्बन्ध में

अहमदाबाद 380033, दिनांक 20 अगस्त 2008

सं. आर.ओ.सी./560-2007-03 --कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विनिर्दिष्ट हो गई हैं :-

| क्रम सं. | रजि. सं. | कम्पनी का नाम |
|----------|----------|---|
| 1. | 04-13740 | मैगन फ्लोयर्स लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड |
| 2. | 04-13068 | मैसर्स किन्नेग एण्डमेन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 3. | 04-13228 | मैसर्स मोकून हाउसिंग कम्पलेक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 4. | 04-02814 | मैसर्स य.ई.के. कोन्फ्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 5. | 04-48120 | मैसर्स मेड इन्फ्रस्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड |
| 6. | 04-48724 | मैसर्स एन.पी.ए. प्राइवेट लिमिटेड |

आर. सी. मिश्रा
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स एम. को. कोयलामरी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में
मुम्बई 400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 625/118348/560/53 --कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एम. को. कोयलामरी प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विनिर्दिष्ट हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स तारिनी मार्केटिंग एण्ड एडवर्टाइजिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 155/116644/560/53 --कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स तारिनी मार्केटिंग एण्ड एडवर्टाइजिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विनिर्दिष्ट हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स जैप स्ट्रिट्स प्रॉपर्टी लिमिटेड के विषय में
मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 418/115914/560/53 --कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जैप स्ट्रिट्स प्रॉपर्टी लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विनिर्दिष्ट हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ओमिग्रान डेवेलपर्स एण्डकॉन्स (शोधक) प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई 400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 220/114066/560/53 --कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

मैसर्स ओमिग्रान टेक्नीकल प्रोडक्ट्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स क्लिप्सल लाईटिंग इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 579/112680/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स क्लिप्सल लाईटिंग इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स सिट्टिविनायक एग्रो प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 424/118505/560(5) --कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सिट्टिविनायक एग्रो प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स देशपाण्डे प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 467/117005/560(5) --कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स देशपाण्डे प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स मैक्सविल्ड प्लान्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 119/82337/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मैक्सविल्ड प्लान्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स चन्द्रमा फार्म हाऊस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 462/69910/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स चन्द्रमा फार्म हाऊस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स नवरंग फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 425/66514/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स नवरंग फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स उन्नती प्लान्टेशन इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 444/64268/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

[illegible][illegible]

11:47

[illegible]

1997

मैसर्स ग्राहमर्स एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड का निम्नलिखित मे

सं. 101-123609-5600-00) कापडोनी सर्वसाधारण, 1995-96 वीं आर्थिक वर्षाची उपभोग (S) ची अनुमानात येत असल्याचा सद्यःस्थितीत काढाव घेतला आहे. पैसास जिल्हा मधील सर्व निविदादारांना याबाबत सूचित करण्यात येत आहे. याबाबतची अधिक माहिती मिळविण्यासाठी या संख्येवर संपर्क घ्यावा.

2024

[illegible]
$$\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{100}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{99}{100}}} = \frac{10}{\sqrt{99}} \approx 1.005$$
[illegible][illegible]

100

मैसर्स परफेक्ट इन्जेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स बान्को एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई 400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 115/15555/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बान्को एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स आर. डी. पटेल एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई 400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 252/14711/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स आर. डी. पटेल एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स जेम्स ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई 400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 178/13430/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जेम्स ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स एन्जय फार्मिनेन्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई 400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 132/13254/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एन्जय फार्मिनेन्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स हिन् सोलकेम प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 239/12359/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स हिन् सोलकेम प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स श्री मयुरेश फार्मिनेन्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 8/108166/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्री मयुरेश फार्मिनेन्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सहयाद्री एक्वा पिन् प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 357/104178/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

मैसर्स सहयाद्री एक्वा मिन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स वेसात मेडिका प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 133/116014/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स वेसात मेडिका प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सनील टूर्स एण्ड ट्रेवलस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 308/101950/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सनील टूर्स एण्ड ट्रेवलस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स स्ट्रकटेक कन्सल्टिंग इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 423/115882/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स स्ट्रकटेक कन्सल्टिंग इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सूर्या चक्र फिनकैप एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 352/101830/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सूर्या चक्र फिनकैप एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स तेज मोस्कीटो मैट्स एण्ड रिपलेन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 481/109349/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स तेज मोस्कीटो मैट्स एण्ड रिपलेन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सिग्नेचर ज्वैल बॉच प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 339/101137/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सिग्नेचर ज्वैल बॉच प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स वेदान्त हर्बल एण्ड प्लांट्स फॉर्मूलेशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 195/103699/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

अध्यायः ३१ तृतीयः ॥ १२५६ ॥ श्रीग

मैसर्स भंगला दीन निर्दिष्ट एण्ड कार्टान्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड से
लिपय है

[illegible]

सं. 69/116349/560/5 : अध्यापी अर्थावहम 1956 की याद 300 की उपधरा 1.5) के अनुसार से एकरहम यह सुचना दी जाती है कि मेधर्ष धराला डीस निा सुपुत एकरहम कम्पनी प्रारिखित लिमिटेड का नाम आज एजिस्टर से काट दिया गया है और इकर कम्पनी विरुद्ध हो गई है।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
 श्रीमद्भगवद्गीता
 अर्जुनसंवादे

कृष्णा १३.७.२००० (१५६० वर्ष)

मैसर्स प्रिया स्टूडियो, गुडगेन रोड, पार्कमोडुल के विपक्ष में

सुसूचक-400001 12.05.2008

सं. 681-129212/5000/5-1-1954 के अधीन, 1956 की भाषा 560 की उपभाषा (53) के अनुसार, जो उपभाषा यह शब्दों की जांच के कि नैमसो प्रिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अंतर्गत भाषा नाम आता है किन्तु के बाद दिया गया है और इसका क्रमानुसार प्रयोग के लिए है।

देवेंद्र कुमार गुप्ता
कानून की संज्ञा-रूप
भा.प्र.प.प.प.

कृष्ण आर्जुन १९५० और

मैसर्स ओमकारादास विमल एवं (प्रा.) प्रैक्टाइसिंग प्रॉपर्टी लिमिटेड के विपणन में

मायूर, 400002, दिनांक: 16 अगस्त 2008

सं. 371/116840/S69/S3 का मतलबी अधिनियम, 1956 को लागू करने की उपधारा (5) के अन्वयेण में एतद्वारा यह सुचना दी जाती है कि मैसर्स अमरकटरगवा बिजनेस एण्ड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड का नाम गंगा राजिन्दर से काट दिया गया है और उक्त कामगार विच्छिन्न हो गये है।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
 कृष्णार्पणं कृष्णाय नमः
 महाभारत

Received 15 July 1998; accepted 19 September 1998

मैत्रयस्य उत्पत्त्यर्थं तर्हि भगवन् विप्रमुखादहो वैश्वदेवेन मे

सम्बन्ध: 400999, दिनांक: 16 अगस्त 2008

सं. S34/95154/S60(5) : अन्तर्गत अधिनियम, 1950 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसार यह सूचना दी जाती है कि मेन्सर्स ड्राइव केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार के आदर किया गया है और स्वतः अन्तर्गती प्रभाव से हो रहा है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कवियों संजयसूर
महागान्ध

कालः: अधिपत्यः, 1956 और

संलग्न बाबत संशोधनकर्त्याने गट संश्लेषण प्रारंभित लिमिटेड वॉल्यूम मे

मस्युं १००००२ दिनांक १६ मई २००८

मं. 215/110831/5609/5-7-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-10

સેલેજ સુનામી ગ્રામ
જાણનો મંત્રાગાર
સહ્યાદ્ર

कम्पनि २०५६-१०००, १९५० और

नैसर्गिक गतिविधियों का प्रभाव और प्रतिक्रिया के विषय में

सम्बर्द्ध- 400012 दिनांक 16 अक्टूबर 2008

सं. 118/118258 '5600 (5) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसार यह सूचना दी जाती है कि मैक्स मोबिलिक्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काटे दिया गया है और उक्त कम्पनी निष्क्रिय हो गई है।

श्रीवेन्द्र कुमार गुप्ता
कानूनी सचिव
महाराष्ट्र

कृत्यन्तं आभारिजम् १९५६ अंश

मैसर्स थनिकार्न मॅनेज्मेन्ट एण्ड कन्सल्टन्सी प्राइवेट लिमिटेड कें विषय में

पत्रांक 5193002, दिनांक 10 अक्टूबर 2008

सी. 349/118173 500/500 - जर्मनी आर्निमियम, 1956 की आय 500 की उपधरा (50) के अनुसंधान में मददगार यह सुझाव दी जाती है कि मेंक्स सृजनकर्ता मेंवेबेल्स का यह काल्पनिकी प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज गजियर से काट दिया गया है और उस कम्पनी विधायित्व हो गई है।

श्रीवेङ्कट कृष्णाय नमः
काम्यनी रत्नमाला
महाराष्ट्र

चरमलो अंश १९३६ और

मैमर्स सस अभिलेख प्रारंभ विभिन्न वं विषय में

सम्वत्- २०७७, चैत्र १६ अर्द्र २०७८

सं. 548/117804/560, 5) जमानती अभियन्तम, 1956 की धारा 560 को उपधारा (5) के अनुसार यह एतद्वारा यह भुचन हो जातो है कि

मैसर्स सुस ऑपरेशन्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दैवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
 सैसर्स अकालमश इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 731/117803/560(5)---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अकलमश इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विचरित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स बाँदी केयर कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मम्बरई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 701/117852/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मेसर्स बाँड़ी केयर कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विपणित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स साई विजया इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

माम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 696/117649/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मेसर्स साईं विजया इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स पैकवैल पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

सम्बन्ध-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 690/117619/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 को उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मैकवैल पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स जेन पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

મમ્બઈ-400002, દિનાંક 16 અપ્રેલ 2008

सं. 471/106226/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स जेन पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और अब कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सिसम एग्री प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

सम्बन्ध-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 8/75372/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सिसम एण्ड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
पैसर्स इन्डायनी जनरल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मन्वई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 275/106301/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

मैसर्स इन्द्रायनी जनरल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कामगोत्री रोड, २३
मुंबई-४०० ००७

कानूनों अधिनियम, 1956 और
मैरूम ग्रांथ एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

सम्बद्ध- 4006002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 10/86209/5000-30। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 396(1) की उपधारा (5) के अनुसार मैं एनएडब्ल्यू यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सुशील फार्मस प्राइवेट लिमिटेड का नाम आर्य रविशंकर मेहता रखा गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
 श्रीकृष्णार्पणम्
 ॐ नमो

कमलों आधिनियम, 1956 और
मैमर्स प्रेम (पब्लिश) प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पञ्चदे-406882, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 478/102867-2-580/53) - कम्पनी अधिनियम, 1956 को लागू करने की उपधारा (53) के अन्तर्गत में पंजवारा यह सूचना दी जाती है कि मैक्स प्रेम इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड का नाम आश रजिस्टार से हटा दिया गया है और उक्त कम्पनी निपटारा हो गई है।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
 श्रीकृष्णाय नमः
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

कांग्रेस आधिकारिक, 1956 और
मैगस कोटे कॉपीराइट्स आइवेंट लिमिटेड के विषय में

मसुदा: 1095992, दिनांक: 16 अगस्त 2008

सं. 117/102812/2009-53) कम्पनी अधिनियम, 1956 को लागू करने की उपधारा (5) के अन्वयेण में एलइडम वॉल्यूटर्स को आवाज देने के लिए मैमर्स कोर्टे कमिशनर एडिक्टेड ऑफिसर को नाम आवाज मिलने से वार्ड दिया गया है और इन्क कम्पनी विचरिज हो गई है।

देवेन्द्र कुमार (पुत्र)
काशी गंगाधर
अध्यापक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स रिश्व आशीष इन्फ्रान्स्ट्रक्चर्स लिमिटेड के विषय में

सम्बर्द्ध-400001, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 491/103364/S60/5/1-आयोग अधिनियम, 1956 की याच 569 की उपधारा (5) के अनुसरण में मुख्यमंत्री महोदयों की जागी है कि मैमर्स शिव आश्रम लिफ्टिंग एजेंसी लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार के कार्यालय में दर्ज किया गया है और उसका कामकाज शुरू हो चुका है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी राजस्थान
पाल्हाड

कम्पनि १९५० और

मैसर्स जे. के. रियल्टी एण्ड - 1475, कामानी प्रोपर्टी प्रिवेन्ट लिमिटेड के

मासिक 4100 रु. : सित्त 15. 03.2008

सं. 499/103385/560/5) का नाम जोर्जिनसम, 1956 को आय 560 की उपभाग (5) के अनुसार 1956 में 1956-57 का सूचना दो जारी है कि मैसर्स जे. के. रियल्टी एजेंट्स का नाम आगामी प्रोविडेंट फिनिशिंग का नाम आज सर्विस से काट दिया गया है। इसका कम्पनी विवरण भी सूचित है।

पुण्ड्रिकः पुनः पुनः
कथनीं पुनः पुनः
पुनः पुनः

कालनामिका १९८० और

मैक्सस ह्युसे मॉर्किन्गिण्ग एण्ड डेवेलपमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
कलकत्ता-१

माध्यम 40899... ० ११ १५ ३१११० ३३१००

[illegible]

देवेन्द्र शर्मा मुख्या
कार्तिकेय शर्मा
महाराष्ट्र

कम्पन! "अच्छा १७५० और

मैक्सिम आर्टिडिलोव (पु. १९४०) लुबोवोवोर्स्की संस्थान के निवासी हैं।

सम्प्राप्त: ५(10) ०३१११० अक्टोबर २०१९

सं. 518/105544/560 का अध्यापक अभ्यापनम्, 1956 की क्रम 560
की उपभाग (S) के अन्तर्गत अध्यापक यह सुचना की जाती है कि

मैसर्स आइडियल प्रिंट ट्रेन्ड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स फिगरहैड फाईनान्स सुपरमार्केट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 432/107939/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स फिगरहैड फाईनान्स सुपरमार्केट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स इन्फा कम्प्युनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 551/135491/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स इन्फा कम्प्युनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स गंगा बिहार डबलेपर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 613/134181/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स गंगा बिहार डबलेपर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सिद्धम ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 435/104042/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सिद्धम ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स अर्नेस्ट फिन्ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 515/105524/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अर्नेस्ट फिन्ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स अयप्पा मार्किटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 755/125050/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अयप्पा मार्किटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स पटका लिजिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 505/102778/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

मैसर्स पटका लिजिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स शाहज प्रोजेन फूड्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 705/16204/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स शाहज प्रोजेन फूड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स एडवेन्चर एग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 26/63840/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एडवेन्चर एग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स साई क्रिस्न एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 301/101972/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स साई क्रिस्न एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स क्रूषक ओलियो रेसिन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 460/101873/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स क्रूषक ओलियो रेसिन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ग्लेनडेल प्लान्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 76/87666/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ग्लेनडेल प्लान्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स करीमलाई फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 479/106235/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स करीमलाई फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स चेन्नी बॉटलिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 534/14255/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

मैसर्स सेन्नी बॉटलिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स गुन्जन प्राइवेट लिमिटेड के विषय में
मुख्य-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 527/04316/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स गुन्जन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेंद्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
 सैसर्स बी. एन. मेहता प्राइवेट लिमिटेड के विषय में
 सम्बन्ध-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 513/12432/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बी. एन. मेहता प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स हंडेनी लैबोरेटरीज (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड के विषय में
माम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 696/008289/560(5)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि सैमर्स हैन्ड्री लैबोरेटरीज़ (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दैवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
 पैसर्स हाइलैंड्स एगो डवलपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
 मासबई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 84/82531/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स हाइलैण्ड्स एग्रो डवलपमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स गोकुल एग्रो इनपुट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में
सम्बर्द्ध-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 87/80415/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स गोकुल एग्रो इनपुट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स गार्डन प्रेश एण्डो प्रोड्यूस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में
मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 93/79132/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 को उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स गार्डन प्रेश एग्री प्रोड्यूस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सर्विन इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
सम्बन्ध-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 72/68159/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सर्विन इण्डस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स चाँयोसेन्स क्राफ़ प्रोटेक्शन (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 498/66114/560(5) - कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स चाँयोसेन्स क्राफ़ प्रोटेक्शन (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स डेज़ो फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 91/61382/560(5) - कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स डेज़ो फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स रेडियन एग्रो इण्डस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 316/60119/560(5) - कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रेडियन एग्रो इण्डस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स बाफना मार्किटिंग एण्ड मैनेजमेंट सर्विसिज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 306/36337/560(5) - कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

मैसर्स बाफना मार्किटिंग एण्ड मैनेजमेंट सर्विसिज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स मराठवाड़ा कृषि उद्योग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 296/19999/560(5) - कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मराठवाड़ा कृषि उद्योग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स हेरीटेज होम्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 75/129736/560(5) - कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स हेरीटेज होम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स साई शिल्प रियल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 47/129715/560(5) - कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स साई शिल्प रियल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सोनिका म्यूजिक एण्ड आर्ट फिल्म्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 650/122296/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सोनिका म्यूजिक एण्ड आर्ट फिल्म्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स यदुवंश कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 603/122182/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स यदुवंश कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स पनवेल ऑटो एन्सिलरीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 566/122166/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पनवेल ऑटो एन्सिलरीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स एम. वी. आर. एण्ड सन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 88/120266/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

मैसर्स एम. वी. आर. एण्ड सन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स फिलक इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 29/119334/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स फिलक इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स रेड एप्पल एग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 102/77745/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रेड एप्पल एग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ग्रीन गोल्ड बॉयोटेक (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 487/112622/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ग्रीन गोल्ड बॉयोटेक (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स श्रीहरी एन्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 1164/110568/560(5) --कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसार यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्रीहरी एन्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विधित्त हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स डेक्कन गोट फार्म्स (नामिक) प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 11/108040/560(5) - कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसार यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स डेक्कन गोट फार्म्स (नामिक) प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विधित्त हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स बजौर मर्केन्टाइल प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 00482/106207/560(5) -- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसार यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स बजौर मर्केन्टाइल प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विधित्त हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स कोकण इन्डस्ट्रियल्स प्रोप्रेटर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 444/105921/560(5) - कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसार यह सूचना दी जाती है कि

मैसर्स कोकण इन्डस्ट्रियल्स प्रोप्रेटर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विधित्त हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स महाबकाल प्रिन्टर रिवन्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 00500/104248/560(5) - कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसार यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स महाबकाल प्रिन्टर रिवन्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विधित्त हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स फॉन इन्वेक्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 00371/104181/560(5) -- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसार यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स फॉन इन्वेक्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विधित्त हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स मैग्नेटिक असेम्बली (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 00331/103012/560(5) -- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसार यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मैग्नेटिक असेम्बली (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विधित्त हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ब्यू वैली लिजिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 283/102611/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ब्यू वैली लिजिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स रनिज् सेविंग्स एण्ड मार्केटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 325/102552/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रनिज् सेविंग्स एण्ड मार्केटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स मानसी सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 280/102262/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मानसी सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स शेयर्स रोअर्स एण्ड स्टोक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 318/102210/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि

मैसर्स शेयर्स रोअर्स एण्ड स्टोक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स आदित्य एपेरल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 310/102073/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स आदित्य एपेरल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

देवेन्द्र कुमार गुप्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स फ्लोर मरीन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 204/115403/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स फ्लोर मरीन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स एडब्ल्यूएस कन्सलटेन्स एण्ड इन्जीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 207/115405/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एडब्ल्यूएस कन्सलटेन्स एण्ड इन्जीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

पैसर्स सिनोटाफ कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को विषय में

सम्बर्द्ध 400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 220/115420/560(5)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सिनोयफ कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स इनार्नी टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 332/115514/560(5) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स इनानी टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स मार्वेल मार्कोन्स इंजीनियरिंग सर्वर प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पृष्ठ-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 245/115427/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि पैरिस पार्वेल मार्कॉन्स इंजीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स मिल्लेनियम एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 31/122954/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स फिल्लेनियम ऐरोस्पेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
ठप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स एस. पी. ऑटो इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई 400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 263/115458/560(5)-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एस. पी. आर्टो इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस्. एम्. सैदाणी
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स एनसी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 304/115504/560(5) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एनसी प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सेंडाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स पारिल एण्ड रोचलानी फाईनेन्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

सम्बर्द्ध-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 292/115494/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 360 को उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि पैसर्स पार्ट्स एण्ड सेक्शनरी फाइनैन्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विनिर्गत हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनो अधिनियम, 1956 और

मैसर्स मौसम एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 233/115422/560(5)- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स मौसम एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विधायन हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्युनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ब्रजवासी पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में
मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 10/122864/560(5) --कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ब्रजवासी पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और इक्क कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
ठप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स पॉली आल्फन (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड के विषय में
सम्बन्ध-4000002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 622/101174/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पॉली आल्थ्रन (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्यनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स खिलाड़ी डॉटकॉम (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड के विषय में
मम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 376/126384/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स खिलाड़ी डॉटकॉम (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्युनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स एगोस्तिनो इनवेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
मार्म्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 93/103732/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एगोस्तिनो इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स अलब्रॉट्स शिपिंग एजेंसीज़ प्राइवेट लिमिटेड के विषय में
फ़ॉर्म-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 391/126416/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसार मैं एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स अलब्राइट्स शिपिंग एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

ए. एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स एग्रिको फार्म इन्फ्रस्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में
सम्बर्द्ध-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 464/104542/560(5)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स एग्रिको फार्म इनपुट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सरल एनविरोटैक प्राइवेट लिमिटेड के विषय में
संख्या-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 399/126421/560(5)- -कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सरल एन्विरोटेक प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैंदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सत्य क्रैडिट कौपिटल प्राइवेट लिमिटेड के विषय में
मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 618/106856/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सत्य क्रेडिट कैपिटल प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स केन्ट फायनेन्शियल सर्विसिज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

મુમ્બઈ-400002, દિનાંક 16 અપ્રેલ 2008

सं. 192/104225/560 (5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 को धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैक्सर्स केन्ट फायनेशियल सर्विसिज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विद्यति हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स हाइग्रेड प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

सम्बन्ध-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 210/108633/560(5) --कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स हाइड्रेड प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और तबत कम्पनी विधायित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स यनिक पॉलीएलास्ट प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

सम्पर्क-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 105/115323/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स यूनिक पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कांमणी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स सैंडभर इंजीनियरिंग एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 118/115324/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सैन्डमर इंजीनियरिंग एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी निषेधित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
डप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स सुरेश पी. राव इंजीनियरिंग एण्ड कन्सल्टिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 125/115336/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसार में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सुरेश पी. राव इंजीनियरिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शंस कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कमपनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स तारकेश्वर माइन्स एण्ड प्लान्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मुख्यई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 143/115343/560 (5)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स तारकेश्वर माहन्स एण्ड प्लाटेशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विधटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स डॉ. एस. लैण्ड्स केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 197/115397/560(5) - कम्पनी अधिनियम, 1956 को धारा 560 को उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स डी. एस. लैब्स केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आष रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स विइलेक कम्युटर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पृष्ठ-400002, दिनांक 16 अप्रैल 2008

सं. 539/118539/560(5) - कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स विज्ञाटेक कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एस. एम. सैदाणे
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स वीटीसी ड्रैजिंग एण्ड मरीन प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-400002, दिनांक 16 अगस्त 2007

सं. 315/130284 560(3) -कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स वीटीसी ड्रैजिंग एण्ड मरीन प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और इस कम्पनी विघटित हो गई है।

एन. एन. कैदर
वा. पी. कादकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स सय इंजीनियर्स एण्ड फार्नडरी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11/20092 560(3) -कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के अवकाश पर मैसर्स सय इंजीनियर्स एण्ड फार्नडरी प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और इस कम्पनी विघटित हो गई जाएगी।

वा. पी. कादकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स अवेला मशीनिंग टूल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11/20360 560(3) -कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के अवकाश पर मैसर्स अवेला मशीनिंग टूल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और इस कम्पनी विघटित हो गई जाएगी।

वा. पी. कादकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स आर्थिक कर्माधिकारीज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11/21385 560(3) -कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के अवकाश पर मैसर्स आर्थिक कर्माधिकारीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और इस कम्पनी विघटित हो गई जाएगी।

वा. पी. कादकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स एडलाक्स कार्ट मैनरी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11/20751 560(3) -कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के अवकाश पर मैसर्स एडलाक्स कार्ट मैनरी प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और इस कम्पनी विघटित हो गई जाएगी।

वा. पी. कादकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स श्यामल ओ. रिकलम प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11/21385 560(3) -कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के अवकाश पर मैसर्स श्यामल ओ. रिकलम प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और इस कम्पनी विघटित हो गई जाएगी।

वा. पी. कादकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स ओलम्पिया मेटल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11/21385 560(3) -कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन महीने के अवकाश पर मैसर्स ओलम्पिया मेटल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ओलम्पिया मेटल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के विषय में
पृष्ठ-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-25395/560(3)---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ओलम्पिया मेटल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

खौ. पी. काठकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स बी. जे. टेक्सटाइल्स मिल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
पणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-09729/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में ऐतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर पैसर्स की. जे. टेक्सटाइल्स मिल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधायित्व कर दी जाएगी।

जी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स दिले इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में
पं०-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-23119/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में ऐतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसम पर मैसर्स दिवे इलेक्ट्रोनिकस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया हो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स इनोवेटिव वेक्स प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में
पणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-23974/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956
की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

जाती हैं कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स इनोवेटिव वेक्स प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्री. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स गोल्डन न्युगेट-कैमिफ्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
पृष्ठ-413004, दिनांक 21 दिसम्बर 2007

स. आर.ओ.सी.पी./11-21104/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स गोल्डन न्युगेट-केमिस्ट्राल्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
 मैसर्स राजी फार्म्स एण्ड प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में
 पृष्ठ-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सो.पी./11-26136/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सबी फार्म्स एण्ड प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स संपदा कास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में
पण-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-21108/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956
की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी
जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स संपदा कार्स्टिंग्स

प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनो अधिनियम, 1956 और

मैसर्स जोशी प्रिन्सिपीयल मशीन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पृणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-26402/560(3)---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार इस सूचना दी जाती है कि इस तारोख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जोशी प्रिन्सिपॉयन मशीन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और श्वेत कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वौ. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स जोश फायर फायटिंग इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पृष्ठे 411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-18073/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जोश फायर फायरिंग इन्क्विपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

व्ही. पी. काटकर
काप्यनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स साहने डॉटल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पृष्ठ- 411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-13520/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैमर्स साहने होटल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वॉ. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स टी. एम. स्टील वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-४११००४, दिनांक ३१ दिसम्बर २००७

सं. आर.ओ.सी.पी./11 12894/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956
की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी
जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स टी. एम. स्टेल
वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया
तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

जी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैक्सर्स अनजरा इलेक्ट्रोनिक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पृष्ठ-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-13199/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अनजरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

चौ. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स नर्मदा नायलोन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पृष्ठ-4) 1004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-19792/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नर्मदा नायस्कोन्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स रूबीकॉन मेटोप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पृष्ठे-4:1004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11 23719/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956
की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स शियाक कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स प्रवीण गुजरी कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स कोवलेस फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-38641/560(3)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कोवलेस फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स अजीत रावेटकर एण्ड कंपनी (बिल्डर्स) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-41797/560(3)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अजीत रावेटकर एण्ड कंपनी (बिल्डर्स) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स फ्लैश लॉग इलेक्ट्रीकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-45645/560(3)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स फ्लैश लॉग इलेक्ट्रीकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स एड्डी वेन्ट (एडवर्टाइजिंग) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-39082/560(3)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एड्डी वेन्ट (एडवर्टाइजिंग) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स प्रवीण गुजरी कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-44366/560(3)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स पुणे इंडस्ट्रीयल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-46278/560(3)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पुणे इंडस्ट्रियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सोम टेक्सटाईल प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स वृंदावन मिल्क प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-42287/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स वृंदावन मिल्क प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स अराईज एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-43790/560(3) - कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अराईज एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स सोम टेक्सटाईल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-41416/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स शशि सीमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-41798/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स शशि सीमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स शहाना पाल्टोज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-40796/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स शहाना पाल्टोज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स बीजलिंग मार्केटिंग एण्ड कन्सलटेन्सी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-41239/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स बीजलिंग मार्केटिंग एण्ड कन्सलटेन्सी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण

(इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स मारुति सिविल वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-44301/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मारुति सिविल वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स आनंद प्रीकोटेड शीट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-43859/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स आनंद प्रीकोटेड शीट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स नील कमल हॉलिडे होम्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-38033/560(3)/1749--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना

दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नील कमल हॉलिडे होम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स मेट्रिक्स सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-37538/560(3)/1800--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मेट्रिक्स सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स शिल्पा ड्रग्स एण्ड फार्मिने केम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-28335/560(3)/1801--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स शिल्पा ड्रग्स एण्ड फार्मिने केम प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स हेड्स इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-35597/560(3)/1802--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना

महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स कुपवाड टेक्सटाईल्स मैनुफ़ैक्चरिंग एण्ड प्रोसेसिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

एणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-32244/560(3) --कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कुपवाड टेक्सटाईल्स मैनुफ़ैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स सनप्लावर इंडस्ट्रीयल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पृणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-35255/560(3)---कम्पनी अधिनियम, 1936 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार मैं एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सनफ्लावर इंडस्ट्रीयल इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स करवीर केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-35299/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स करशोर केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

पैसर्स कोल्हापर रबर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पृष्ठ-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सो.पी./11-42471/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कोल्हापुर रबर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

ची. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स रोसशिला फड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-43408/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसंधान में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स रोसशिला फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विचरित कर दी जाएगी।

जी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स ओसिस क्लब प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पणे-4/1004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-42556/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार मैं एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ओसिस क्लब प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स पना उद्योग प्रिसेसन मशीनिंग प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पत्रे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-44124/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956
की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार मैं एतद्वारा यह सूचना दी

जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एना डर्थिंग प्रिसेसन मशीनिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विवर्जित कर दी जाएगी।

श्री. पी. कार्कर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स ट्रस्टेडिग इंजीनियरिंग एन्टरप्राइसेज प्राइवेट लिमिटेड के निषय में

पृष्ठ-411003, दिनांक 31 डिसेम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-45194/560(3)/1816--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ट्रस्टीशिप इंजीनियरिंग एन्टरप्राइसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसको प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उन्नत कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

डॉ. पी. काटकर
 कम्पनी रजिस्ट्रार
 महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स फिनोक्स कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पृष्ठे-41100-1, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-39198/560(3) -कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन पाद्य के अवसान पर मैसर्स फिनोक्स कम्प्यूटर कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिभूत कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

यो. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैक्सर्स बचत फंड्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पृष्ठे 4/1004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.औ.सी.पो./11-43570/560(3) --कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर प्रैसस वपारों का-

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स केलकॉम फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पृणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-43369.560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार मैं एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स केलकॉम फार्मस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

चौ. पो. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स केलकर रोमैस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पृष्ठ-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सो.पी./11-43371/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 को धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार मैं एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन पाय के अवसान पर मैसर्स केलकर रोसेस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विचरित कर दी जाएगी।

वी. पो. क. इ. अ. र.
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स जेधे एण्डो इण्डस्ट्रिज प्रॉपर्टी लिमिटेड के विषय में

पण: 411004, दिनांक: 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.आ.सो.पो./11-40803/560(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसारण में एतद्वारा वह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जेधे एण्ड इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसकी प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वै. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
मुंबई

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स जेधे ऑयल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पृष्ठ-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-40802/560(3)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जेधे ऑयल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्री. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सोना होटल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पृष्ठ-4।1004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-41557/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सोना होटल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स रतनो बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-४११००४, दिनांक ३१ दिसम्बर २००७

सं. आर.ओ.सी.पी./11-45557/560(3)---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारिख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एतनी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सिलिकॉन टेक्नोलॉजिस् प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पृष्ठ-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-45459/560(3)—कम्पनी अधिनियम, 1956
की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी

जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सिलिकॉन टेक्नोलॉजिज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स भागीरथी रोलर फ्लोर मिल प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पृष्ठ-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-45014/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स भागीरथी रोलर फ्लोर मिल प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

सी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स पॉलीटेकोर पुणे प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पृष्ठ-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-45094/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पॉलीटेकोर पुणे प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सिग्नस इलेक्ट्रॉनिक्स इण्डस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-44732/560(3)/VVG--कम्पनी अधिनियम,
1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना
दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सिगनस

सं. आर.ओ.सी.पी./11-42527:560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956
की धारा 560 की उपधारा 1(3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स क्रिष्णा मिल्क एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स सतारा मैकेनिकल वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-40680/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सतारा मैकेनिकल वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स इनडोकैन इंजीनियरिंग सिस्टम्स लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-31017/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स इनडोकैन इंजीनियरिंग सिस्टम्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स मेलिता इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-30703/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स मेलिता इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स शांडिल्य एग्रीकल्चरल एण्ड हैचरीज़ प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-30626/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स शांडिल्य एग्रीकल्चरल एण्ड हैचरीज़ प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स सुपर पेट्रो-कैम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-28036/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सुपर पेट्रो-कैम प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स सन-टैक अब्रेशन प्रोटेक्शन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-46712/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सन-टैक अब्रेशन

प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से कार्रवाई वापस और उक्त कम्पनी विचरित कर दी जाएगी।

वी. पी. काठकर
कम्पनी मॅनेजिंग
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
पैसमं क्रॉकण इंजॉनरिंग प्राइवेट लिमिटेड के धिय मे

पृष्ठ 411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. अर.ओ.सी.पी.-11 38436/560(3)-- कम्पनी अधिनियम, 1956
को भाग 560 को उपभाग (3) के अनुसार में एतद्द्वारा यह सूचना दी
जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कोकण ईर्कनियर्स
प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो
रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विचरित कर दी जाएगी :

श्री. पी. कारकर
कम्पनी गजपुर
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
पैसल संवेन कन्सल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के नियमों में

पृष्ठ-411014 दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी.एन-28352-560(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 को धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तब मग के अवसंध पर मैसर्स संवेनो कन्सल्टंट्स प्राइवेट लिमिटेड का तम टांके प्रतिफल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से कार्रवाई जाणनी और उक्त कम्पनी विधार्थित कर दी जाणनी ।

वौ. पां. काटकर
कंपनी रजिस्ट्रार
मुहाना

कचनी अधिनियम, 1956 और
पैसस गंगा एगिण्डा स्मिथ्स प्राइवेट लिमिटेड के जलय में

पृष्ठ: 4/2004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी. 11/56784/560(3)/एसडीसी कायदा की अधिनियम, 1956 की धारा 5(1) की उपधारा (3) के अनुसार में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस नगरपालिका में ताल पाय के अवस्थान पर मैसर्स एम. हरिगेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकृत्य आधार पर दर्जित न किया गया तो यह प्रत्यक्ष में कायदा पर लागू और उक्त कम्पनी विचलित कर दी जाएगी।

यों पाँ. कामकर
कम्पनी नजद्वार
पदमाद

काणनो निर्देशानुसार, 1956 और
विद्युत निरूपण सेवा केन्द्रों का नाम प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पृष्ठे 411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आ.ग.ओ.सी.पी.जी. 56112-56003) एमडीपी-कम्पनी अधिनियम, 1936 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसारण में एतद्वारा वह सूचना दी जाये है कि वय वारीयु में तीन घाम के अवसान पर मैसर्स नित्यसेवा कन्सल्टन्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रातिकूल कारण दर्शित न किया गया हो रजिस्ट्र से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघातन कर दो जगहों।

वर्मा, पी. कलकत्ता
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
 सैसर्स प्रोटोकॉल सफ़्टवेयर (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पृष्ठं 411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी. ११-६०४३०/५६०(३)/एसडीपी--कम्पनी अधिनियम, १९५६ की धारा ५६० की उपधारा (३) के अनुसरण में एलइदरा यह सूचना दी जाती है कि इस तारोख से तीन मास के अवसान पर मेसर्स प्रोटेक्टोकोल साफ्टवेयर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधायित कर दी जायेगी।

श्री. प्रो. आर. क.
कम्पनी लिमिटेड
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैथर्स सख्तानकर्स प्रकाश व. अग्रिम प्राईवेट लिमिटेड के बिना में

पृष्ठ-491004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी. 11/61295/560(3)/एस.डी.पी.-कमर्स
अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा 1(3) के अनुसरण में एतद्वारा
यह सूचना दी जाती है कि इस दरिफ़ से तीन मास के अवकाश पर
मैसर्स सखालकर्म प्रकाश कलामिस् प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसमें प्रविष्ट
कारण दर्शित न किया गया तो निरस्त से काट दिया जाएगा और उक्त
कम्पनी विधित्त कर दी जाएगी।

वॉ. श्री. काटकर
लग्नो गजिस्टार
पहाराट

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स श्री दीप रि-ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में
पृष्ठ-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-65556/560(3)/एसडीपी--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स श्री दीप रि-ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स श्री वरदाश्री केमोर्गैट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
पृष्ठ-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सो.पी./11-57407/560(3)/एसडीपी--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में ऐतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स श्री वरदाश्री केमोपैट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

चौ. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सखाई इलेक्ट्रो ट्रेड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
पृष्ठ-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सो.पी./11-60203/560(3)/एसडीपी--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सवाई इलेक्ट्रो ट्रेड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सुदर्शन फाऊण्डरीज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में
पणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-61004/560(3)/एसडीपी--कम्पनी
अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा

यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सुदर्शन फाऊण्डरीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिभूत कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स आर. आर. एन्टरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में
पृष्ठ-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-62376/560(3)/एसडीपी--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स आर. आर. एन्टरप्राइजेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
पैसर्स कोरपुम इन्फार्मेशन सिस्टम (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
के विषय में

पृष्ठ-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-62458/560(3)/एसडीपी--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कोरयुप इन्फार्मेशन सिस्टम (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

श्री. पी. काटकर
 कम्पनी रजिस्ट्रार
 महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स आधुनिक पॉलिफेन प्राइवेट लिमिटेड के विषय में
पृष्ठ-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-62856/560(3)/एसडोपो--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स आधुनिक पॉलीफोन प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित

होम्य पावर जनरेशन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिभूल कायदा दर्शित न किया गया। वे निजस्तर से काट दिया जाएगा और दस्त कम्योनी विधायक कर दी आपत्त।

बी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

नवम्बर १९५६ और
मैसर्स जिनीश्वर एंजिनिटेरिंग प्राइवेट लिमिटेड के ग्रिप में

पृष्ठ-41, पृष्ठ-42, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी. 11-65571/560(31)/एसओपी-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560(3) के अनुसरण में एतद्वारा वह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवधान पर पैसेस जिनीअस पोलिसीस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर में काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

डॉ. पी. काटकर
 कम्पनी रजिस्ट्रार
 महाराष्ट्र

महसूस वेद एकसंपूर्ण तन्त्र प्रणाली प्रणाली के विषय में

पृष्ठे 4E1004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी. १३-६५६३२/५६०(३)/एसडीपी--कम्पनी अधिनियम, १९५६ की धारा ५६० की उपधारा (३) के अनुसार मैं एनडब्ल्यू वह सूचना दी जाती है कि इस मामले से जोन माय के अस्थायी पर मैमर्स वेद एक्सपोर्ट्स एण्ड इम्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिष्ठा कारण दर्शित व किया गया तो रजिस्ट्रार में काट दिया जाएगा और इस कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

चौ. पाँ. काष्ठक
कम्पना मन्त्रश्रुत
... अराष्ट्र

कम्पनी का गठन वर्ष 1956 और
मैसर्स प्रोफाइलफार्म इंजीनियरिंग एण्ड लूनिंग प्रो. प्राइवेट लिमिटेड को
1959 में

पृष्ठ- 411604, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

मं. आग.ओ.सी.पी.नं. 65240-560(3)/एसडीपी--3, 1956
अर्धनियम, 1956 की धारा 560 का उपधारा (3) के अन्वये में प्रस्तुत
वह सूचना दी जाती है कि इस अधिनियम में तीन भाग के अन्तर्गत प्रोविजन्स

इंजीनियरिंग एण्ड टूलिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सविराज एगो इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-४११००४, दिनांक ३१ दिसम्बर २००७

सं. आर.ओ.सी.पी./11-35036/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सवित्राज एगो इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स श्री गणेश शूगरकेन ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-४११००४, दिनांक ३१ दिसम्बर २००७

सं. आर.ओ.सी.पी./11-30530/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स श्री गणेश शुगरकेन ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स अग्रवाल स्टेन उद्योग प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-33552/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956
की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

जाती है कि इस तरीके से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अग्रवाल स्टोन उद्योग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और इकत कम्पनी विधदित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स अक्षय मैनैजमेंट कन्सल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-४११००४, दिनांक ३१ दिसम्बर २००७

सं. आर.ओ.सी.पी./11-33965/560(3)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स अक्षय मैनजमेंट कन्सल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काठकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स भागवत फार्मस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पृष्ठ-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-33350/560(3)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवधान पर मैसर्स भागवत फार्मस् प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स पटेल होटलिंग प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

प्रणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-34549/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस सारोख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पटेल होटलिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स दधिची एग्रीकल्चरल डेयरी प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स नानन प्रैस पार्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-29931/560(3)/बीबीजी--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नानन प्रैस पार्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स धौमाया एग्रीकल्चरल एण्ड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-30622/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स धौमाया एग्रीकल्चरल एण्ड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स वशिष्ठ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-30613/560(3)/बीबीजी--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना

दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स वशिष्ठ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स ओपन सोसेम मैमोरी मशीन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-35176/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ओपन सीसेम मैमोरी मशीन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स गणपोले कन्स्ट्रक्शन कं. प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-34377/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स गणपोले कन्स्ट्रक्शन कं. प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सिनटा टाईल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-41924/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सिनटा टाईल्स

जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स डेसचान कन्ट्रोल्स एण्ड सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधित्त कर दी जाएगी।

श्री. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कॉमिकल कन्सल्टेंट एण्ड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

डॉ. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स सनडियू होम अप्लायन्सिस एण्ड पेस इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
को विषय में

पृणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-40749/560(3) --कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर चैम्सर्स सनडियू होम अप्लायन्सिस एण्ड पैस इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स पिपासा हिड्रो प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पृष्ठ-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-4188/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर पैसर्स पिपासा हिड्रो प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स एफ्लुएन्ट एण्ड केमिकल कन्सलटेंट एण्ड इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पृष्ठ-431004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.औ.सी.पी./11-41063/560(3)—कम्पनी अधिनियम, 1956
की धारा 560 की उपधारा (3) को अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी
जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एफएलएनएण्ड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स शिखर फार्मस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सो.पी./11-43368/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर पैसर्स शिवकृपा फार्मस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विच्छिन्न कर दी जाएगी।

ची. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स श्री भलेश्वर फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

पृणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-43367/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स श्री भुलेश्वर फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विधत्त कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स जे.ए.के. केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

प्रणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-40804/560(3)-कम्पनी अधिनियम, 1956 को धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जेड्डे एण्ड कॅमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

प्रोडक्ट्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स ओरबिट कोनस्ट्रो (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 31 दिसम्बर 2007

सं. आर.ओ.सी.पी./11-39740/560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ओरबिट कोनस्ट्रो (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. पी. काटकर
कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स पीनाक्षी टेक्नो प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में

शिलांग-793001, दिनांक 14 अगस्त 2008

सं. 560(5)/एमसीए/स.ब./शिलांग/धारा--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स पीनाक्षी टेक्नो प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

स्वाधीन बरुआ
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स श्री माता मेटल एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में

शिलांग-793001, दिनांक 14 अगस्त 2008

सं. 560(5)/एमसीए/स.ब./शिलांग/धारा -- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

जाती है कि मैसर्स श्री माता मेटल एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

स्वाधीन बरुआ
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स पीक एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में

शिलांग-793001, दिनांक 26 अगस्त 2008

सं. 560(3)/एमसीए/स.ब./शिलांग/धारा/181--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पीक एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

स्वाधीन बरुआ
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स खीराखि आइल फील्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में

शिलांग-793001, दिनांक 26 अगस्त 2008

सं. 560(5)/एमसीए/स.ब./शिलांग/धारा/182--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स खीराखि आइल फील्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

स्वाधीन बरुआ
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स ईस्टर्न इण्डस्ट्रियल इन्टरप्राइसेस लिमिटेड के सम्बन्ध में

शिलांग-793001, दिनांक 26 अगस्त 2008

सं. 560(5)/एमसीए/स.ब./शिलांग/धारा/183--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स ईस्टर्न इण्डस्ट्रियल इन्टरप्राइसेस लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

स्वाधीन बरुआ
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. पू. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स सायबिका एण्ड एण्ड स्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के गम्भ-भ में
शिलांग-793001, दिनांक 26 अगस्त 2008

सं. 560(5) एमएस. म.व. शिर्डी/धारा/184--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में यह दस्तावेज यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स भायक्रिया एग्री एण्ड इन्स्ट्रुमेन्ट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

संस्कृत-भाषा-
काम-विभाग-
उ. प. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स वी. एण्ड एस. हार्जिस फार्मिन्स प्राइवेट लिमिटेड के मन्वज में
शिलॉन्ग 793001, दिनांक 26 अगस्त 2008

सं. 560(5) एनसोप्लस, ब्राडिशिंग धारा 185--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 को उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैगम जो. एण्ड एम. हाउसिंग फायनेंस प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज गैजट में काट दिया गया है और इसका पञ्जीकृत विघटित हो गई है।

सद्वर्णन संख्या
कम्पनी पंजीकरण
र. घ. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मेसर्स यूनाइटेड इंडियन लिमिटेड के सम्बन्ध में
शिलोन्ग-793001, दिनांक 26 अगस्त 2008

सं. 560(5)-रमबाग,स.व.शिवांग भाग/186--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 500 वीं उप-धारा (5) के अनुसमर्थन में एगद्दारा वह सूचना दी जाती है कि मैंगनी मृणाचल ब्रीवरीज लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और इस कम्पनी विधिवत ही गई है।

स्वधर्मं विमोक्ष्य
कर्मणो रतिशून्यः
उ. पू. क्षेत्र

कलकत्ता अधिवेशन, 1956 और
मैसूर कलकत्ता प्रान्तों के डॉ. प्रादयेत लिमिटेड के मन्वत्त में
अधिवेशन 29-30-31, दिनांक 20 अगस्त 1958

सं. 560/33 गम-नाम, य. व. (प्रमाणित) 187 अथवा आर्ष-यम
1956 की 1957-58 की 33-34 (33) के अधिनियम में प्रस्तावित 560

सूचना दी जाती है कि हम तुरंत से नान मास के अवरोधन पर मेसर्स चान्सो प्रोपर्टी टो जॉ. लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किम थाका ने एम्प्ल से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

स्वाध्याय वरुआ
कम्पनी रजिस्टार
उ. ए. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निर्माणाद्यः कंपनियों के विषय में

कोच्चि-682021 दिनांक 5 अगस्त 2008

सं. एमएम560(3)एमएम-आर/श्रीगं/एम्माकुलम/11531/2008--
कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में
एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर
निम्नलिखित कंपनियों को नाम इच्छा प्रतिकूल कारण दर्शाते कि किया गया
है रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कंपनियों विपरित कर दी
जाएंगी :-

| क्रम सं. | क. सं. | कम्पनी का नाम |
|----------|--------|---|
| 1. | 14440 | मैसर्स मिलास आदिमोलेख प्राईवेट लिमिटेड |
| 2. | 14449 | मैसर्स केनथल कार्बन प्राइवेट लिमिटेड |
| 3. | 14458 | मैसर्स कापल प्रोपर्टी प्राईवेट लिमिटेड |
| 4. | 14463 | मैसर्स सलग प्राईवेट रॉबिन्सन्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 5. | 14464 | मैसर्स विनस गोप प्रोपर्टी प्राईवेट लिमिटेड |
| 6. | 14469 | मैसर्स गैरिफो प्रोपर्टी मचैनडाईस प्राईवेट लिमिटेड |
| 7. | 14474 | मैसर्स कौशली इमोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट कं. प्राईवेट लिमिटेड |
| 8. | 14480 | मैसर्स वेत आर्टिफे कोन प्राईवेट लिमिटेड |
| 9. | 14497 | मैसर्स खंडत किरान प्राईवेट लिमिटेड |
| 10. | 14498 | मैसर्स एसटी रेल कौकल प्राईवेट लिमिटेड |
| 11. | 14507 | मैसर्स सनल इन्फोटेक सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 12. | 14514 | मैसर्स एम एन एंजिनिअरिंग प्राईवेट लिमिटेड |
| 13. | 14518 | मैसर्स सुभाष इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड |
| 14. | 14520 | मैसर्स एम एन एंजिनिअरिंग प्राईवेट लिमिटेड |
| 15. | 14525 | मैसर्स सुभाष इन्फोटेक एण्ड फार्म प्राईवेट लिमिटेड |
| 16. | 14526 | मैसर्स एम एन एंजिनिअरिंग प्राईवेट लिमिटेड |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|-------|--|
| 17. | 14527 | मैसर्स मारारी विल्लेज बीच प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड |
| 18. | 14533 | मैसर्स इमनाज मोटर्स एण्ड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड |
| 19. | 14534 | मैसर्स फोरच्यून कैरियर ओप्शन्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 20. | 14548 | मैसर्स इनफो कॅपिटल्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 21. | 14570 | मैसर्स ट्रियोज एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 22. | 14572 | मैसर्स प्रोग्रेसीव नेटवर्क कनेक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 23. | 14577 | मैसर्स ट्राईस शिपिंग साउथ प्राईवेट लिमिटेड |
| 24. | 14581 | मैसर्स ट्रेनडर्स कुरीज प्राईवेट लिमिटेड |
| 25. | 14585 | मैसर्स स्पलाप इंपोर्ट्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड |
| 26. | 14586 | मैसर्स देवीप्रिया कुरीज प्राईवेट लिमिटेड |
| 27. | 14593 | मैसर्स कालडो कार्मशियल सिंडिकेट चिट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 28. | 14594 | मैसर्स इन्फोलोजिक्स इन्टीग्रेटेड प्राईवेट लिमिटेड |

के. श्रीकुमार
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
केरल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

कोच्चि-682021, दिनांक 13 अगस्त 2008

सं. एसएम560(3)एसएम/आरओसी/एरनाकुलम/11825/2008--
कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में
एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर
निम्नलिखित कंपनियों का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया
तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी
जाएंगी :--

| क्रम सं. | क. सं. | कम्पनी का नाम |
|----------|--------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 7724 | मैसर्स दी कार्टूमपुरम फाईनेस प्राईवेट लिमिटेड |
| 2. | 8595 | मैसर्स जोस्को फूड्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 3. | 8618 | मैसर्स चाकरा अकुआ फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 4. | 8631 | मैसर्स कोडुंगल्लूर कुरीज लोन्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 5. | 8671 | मैसर्स भवानी अग्रो फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 6. | 8717 | मैसर्स मोर रियल एस्टेट एण्ड प्रोपर्टी डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|------|---|
| 7. | 8719 | मैसर्स भूमन अप्पैलज प्राईवेट लिमिटेड |
| 8. | 8739 | मैसर्स पारको फूड्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 9. | 8819 | मैसर्स बोर्न टफ रबर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 10. | 8864 | मैसर्स फैमिली फिस्कल फिटनेस प्राईवेट लिमिटेड |
| 11. | 8917 | मैसर्स नैय्यर मार्किटिंग प्राईवेट लिमिटेड |
| 12. | 8944 | मैसर्स नोहज आर्क ट्रेड लाई प्राईवेट लिमिटेड |
| 13. | 8957 | मैसर्स ग्रीको कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 14. | 9025 | मैसर्स एसोसिएटेड रिसोर्सज डेवलपमेन्ट कंपनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 15. | 9035 | मैसर्स फरटी सैन्ड्स इण्डिया प्रोबर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 16. | 9056 | मैसर्स अरोमा होटल्स एण्ड एन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड |
| 17. | 9059 | मैसर्स कमान्ड प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड |
| 18. | 9064 | मैसर्स साई रिसोर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 19. | 9066 | मैसर्स रजत रियल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 20. | 9078 | मैसर्स बिलियन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 21. | 9106 | मैसर्स फार रीच ट्रेड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड |
| 22. | 9165 | मैसर्स एरीस टेकनीकल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड |
| 23. | 9190 | मैसर्स धनवन्तरी रिमेडोज प्राईवेट लिमिटेड |
| 24. | 9194 | मैसर्स लेन्ट्स लिफटिंग एण्ड कनस्ट्रक्शन सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड |
| 25. | 9208 | मैसर्स गोलहन सिंडिकेट प्राईवेट लिमिटेड |
| 26. | 9215 | मैसर्स केसिया बिल्डर्स एण्ड प्रोपर्टी डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 27. | 9223 | मैसर्स अराशी बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 28. | 9235 | मैसर्स हाई-लैण्ड हाऊसिंग एण्ड ट्रेड प्राईवेट लिमिटेड |
| 29. | 9243 | मैसर्स सभा ओवेटेक प्राईवेट लिमिटेड |
| 30. | 9277 | मैसर्स लक्ष्मीधारा बिल्डर्स एण्ड ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 31. | 9293 | मैसर्स सजमिया कन्स्ट्रक्शन कंपनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 32. | 9301 | मैसर्स फैमिली इन्वोर्ड फार्म प्राईवेट लिमिटेड |
| 33. | 9315 | मैसर्स कांडुंगल्लूर क्रोडिट्स एण्ड चिट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 34. | 9328 | मैसर्स रिगालिया इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड |
| 35. | 9246 | मैसर्स प्रार्मा एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 36. | 9279 | मैसर्स मोटो टूरिस्ट ऐड्ज प्राईवेट लिमिटेड |
| 37. | 9343 | मैसर्स पोर्ट कुरीज एण्ड लॉज प्राईवेट लिमिटेड |

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स कुमरण फौडेंस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

चेन्नई, दिनांक 13 अगस्त 2008

सं. 09896/560(3)/2008—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कुमरण फौडेंस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एन. एस. पोन्नम्बी
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

बेंगलूर, दिनांक 22 अगस्त 2008

सं. आरओसीबी/560(3)/ए/जेके/सीबीडी/2008—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर नीचे दिये गये कम्पनियों के नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी :—

| क्र. सं. | रजि. नं. | कम्पनी का नाम |
|----------|----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 14611 | मैसर्स कल्पवृक्ष प्लांटेशन इंडिया लिमिटेड |
| 2. | 4538 | मैसर्स इटेल टेक्नोकॉर्पोरेशन इंजीनियर्स एण्ड कन्सल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 3. | 24666 | मैसर्स करन कंसल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड |
| 4. | 8753 | मैसर्स अत्रेय लेमिनेशन प्राईवेट लिमिटेड |
| 5. | 8971 | मैसर्स एरोडाइन इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 6. | 9990 | मैसर्स अभिप्री विलडेटेक प्राईवेट लिमिटेड |
| 7. | 26702 | मैसर्स पंच रत्न साफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड |
| 8. | 25751 | मैसर्स प्रीमियर हेचरीज प्राईवेट लिमिटेड |
| 9. | 8887 | मैसर्स खेतान एजेंसोज प्राईवेट लिमिटेड |
| 10. | 8905 | मैसर्स क्लोरियान कोरियर सर्विस प्राईवेट लिमिटेड |
| 11. | 26353 | मैसर्स इफोडेक्स मणिपाल इंटरप्राइजेस प्राईवेट लिमिटेड |
| 12. | 10830 | मैसर्स श्री गुरुकृपा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 13. | 9234 | मैसर्स इफोटेक कंन्याईन्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 14. | 11364 | मैसर्स गौडा एक्विजम प्राईवेट लिमिटेड |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|-------|--|
| 15. | 9963 | मैसर्स जय कास्ट प्राईवेट लिमिटेड |
| 16. | 9959 | मैसर्स श्री मिल्क सप्लाय प्राईवेट लिमिटेड |
| 17. | 10635 | मैसर्स वेद प्रोमन प्राईवेट लिमिटेड |
| 18. | 11275 | मैसर्स के. आर. एम. एण्ड पार शूज (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड |
| 19. | 10139 | मैसर्स टैयो पेन कंपनी प्राईवेट लिमिटेड |
| 20. | 10136 | मैसर्स कारमोस रायटिंग इंस्ट्रुमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 21. | 9033 | मैसर्स के. आर. एम. केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 22. | 24883 | मैसर्स पेंटलेक्स ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड |
| 23. | 9702 | मैसर्स पोन्नागिरी प्लांटेशन प्राईवेट लिमिटेड |
| 24. | 24455 | मैसर्स केल्टानिक्स टेक्नोलॉजिज प्राईवेट लिमिटेड |
| 25. | 11312 | मैसर्स एपियान इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 26. | 11333 | मैसर्स ट्रायस्टार एक्वाइन ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड |
| 27. | 9702 | मैसर्स पोन्नागिरी प्लांटेशन प्राईवेट लिमिटेड |
| 28. | 11092 | मैसर्स सुपर बिजर ब्रशेस प्राईवेट लिमिटेड |
| 29. | 11483 | मैसर्स संजित इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 30. | 9036 | मैसर्स अंबर इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 31. | 31242 | मैसर्स एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्डवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड |
| 32. | 9425 | मैसर्स लक्ष्मी टेम्प कंट्रोल प्राईवेट लिमिटेड |
| 33. | 9307 | मैसर्स नेटवर्थ होलिडिंग्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 34. | 9751 | मैसर्स कविता इंडस्ट्रियल गेगेस एण्ड कंसल्टेन्सी प्राईवेट लिमिटेड |
| 35. | 11180 | मैसर्स मंगला सेरिकल्चर प्राईवेट लिमिटेड |
| 36. | 10093 | मैसर्स गिन्ज, मुरिकान एण्ड ब्रो इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 37. | 9426 | मैसर्स मेसोनिक कास्टमिड प्राईवेट लिमिटेड |
| 38. | 9364 | मैसर्स केनरा टोबैक्को प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 39. | 10237 | मैसर्स एनीसी कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड |
| 40. | 10189 | मैसर्स मंजुनाथ हाई-टेक कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड |
| 41. | 9583 | मैसर्स उमा मेडी-लाइफ हॉस्पिटल एण्ड सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड |
| 42. | 8545 | मैसर्स थर्मोप्लास्ट कंटेनर्स प्राईवेट लिमिटेड |

बी. सी. दवे
कम्पनियों के रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में
बैंगलूर, दिनांक 22 अगस्त 2008

सं. 560(5)/केएम/2008-09—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

| क्र. सं. | रजि. नं. | कम्पनी का नाम |
|----------|----------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 17497 | मैसर्स रेगेन पेस्ट्रोसाईड्स लिमिटेड |
| 2. | 17514 | मैसर्स अंबिका इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड |
| 3. | 17619 | मैसर्स अमृत बाळसिंग डबलफर्मेट कार्पोरेशन लिमिटेड |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|-------|---|
| 4. | 17670 | मैसर्स उडम इंडिया लिमिटेड |
| 5. | 17671 | मैसर्स एकरकरन इंडिया लिमिटेड |
| 6. | 17673 | मैसर्स एक्जीक्यूटिव इंडिया लिमिटेड |
| 7. | 17704 | मैसर्स टीआरवी इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस लिमिटेड |
| 8. | 17780 | मैसर्स श्री शाम भोग सिंक्क लिमिटेड |
| 9. | 17863 | मैसर्स श्री आनंदगाँ एक्का प्रोडक्त्स लिमिटेड |
| 10. | 19397 | मैसर्स करन आर्गेफन लिमिटेड |

ए. एम. श्रीधरन
कम्पनियों के रजिस्ट्रार
कर्नाटक

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 19th August 2008

No. F.20/2007-SCA(I)—Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to promote the following officers of this Registry to the posts and with effect from the date mentioned against each until further orders:—

| Sl. No. | Name & Designation | Post to which promoted & Date |
|---------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Shri P. K. Mohabobu Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) | Officiating Assistant Registrar w.e.f. 18.8.2008 |
| 2. | Smt. Vijay Aggarwal Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) | Officiating Assistant Registrar w.e.f. 6.8.2008 (A/N) |
| 3. | Shri Rajinder Nath Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) | Officiating Assistant Registrar w.e.f. 6.8.2008 (A/N) |
| 4. | Shri Shiv Charan Singh Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) | Officiating Assistant Registrar w.e.f. 6.8.2008 (A/N) |
| 5. | Shri Badr-UI-Islam Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) | Officiating Assistant Registrar w.e.f. 6.8.2008 (A/N) |
| 6. | Shri Kanwal Singh Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) | Officiating Assistant Registrar w.e.f. 6.8.2008 (A/N) |
| 7. | Shri Roop Chand Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) | Officiating Assistant Registrar w.e.f. 6.8.2008 (A/N) |
| 8. | Smt. Radha Rani Bhatia Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) | Officiating Assistant Registrar w.e.f. 6.8.2008 (A/N) |
| 9. | Shri Suraj Prakash Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) | Officiating Assistant Registrar w.e.f. 6.8.2008 (A/N) |
| 10. | Shri Om Prakash Sin Lt. Shri Raghu Ram Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) | Officiating Assistant Registrar w.e.f. 6.8.2008 (A/N) |
| 11. | Shri M. S. Rathur Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) | Officiating Assistant Registrar w.e.f. 6.8.2008 (A/N) |
| 12. | Shri Roshan Lal Yadav Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) | Officiating Assistant Registrar w.e.f. 6.8.2008 (A/N) |
| 13. | Shri Virender Kumar Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) | Officiating Assistant Registrar w.e.f. 6.8.2008 (A/N) |
| 14. | Smt. Neena Ahuja Senior Court Assistant/ Editor of Paper Books/ Court Associate | Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) w.e.f. 6.8.2008 (A/N) |
| 15. | Shri Rajinder Kumar Sharma Senior Court Assistant/ Editor of Paper Books/ Court Associate | Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) w.e.f. 6.8.2008 (A/N) |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|---|--|
| 16. | Shri Anil Kapoor Senior Court Assistant/ Editor of Paper Books/ Court Associate | Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) w.e.f. 6.8.2008 (A/N) |
| 17. | Smt. Rajni Malhotra Senior Court Assistant/ Editor of Paper Books/ Court Associate | Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) w.e.f. 6.8.2008 (A/N) |
| 18. | Smt. Indu Satija Senior Court Assistant/ Editor of Paper Books/ Court Associate | Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) w.e.f. 6.8.2008 (A/N) |
| 19. | Smt. Savita Samani Senior Court Assistant/ Editor of Paper Books/ Court Associate | Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) w.e.f. 6.8.2008 (A/N) |
| 20. | Shri Ashok Mehta Senior Court Assistant/ Editor of Paper Books/ Court Associate | Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) w.e.f. 7.8.2008 (F/N) |
| 21. | Shri Mahabir Singh Negi Senior Court Assistant/ Editor of Paper Books/ Court Associate | Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) w.e.f. 6.8.2008 (A/N) |
| 22. | Smt. Shashi Bala Vy Senior Court Assistant/ Editor of Paper Books/ Court Associate | Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) w.e.f. 6.8.2008 (A/N) |
| 23. | Smt. Juginder Kaur Senior Court Assistant/ Editor of Paper Books/ Court Associate | Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) w.e.f. 6.8.2008 (A/N) |
| 24. | Shri J. P. Sharma Senior Court Assistant/ Editor of Paper Books/ Court Associate | Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) w.e.f. 7.8.2008 (F/N) |
| 25. | Shri S. Sivaramakrishna Senior Court Assistant/ Editor of Paper Books/ Court Associate | Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) w.e.f. 6.8.2008 (A/N) |
| 26. | Shri Khushwant Rai Malhotra Senior Court Assistant/ Editor of Paper Books/ Court Associate | Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) on ad-hoc basis against the purely short term temporary vacancy w.e.f. 6.8.2008 (A/N) |

VIMAL KUMAR YADAV
Jt. Registrar

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 22nd August 2008

No. DP/PERS.1/2008/133/3/1/2005—Shri S. S. Harwalkar relinquished charge of the post of Supdt. of Police, Central Bureau of Investigation on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31.07.2008.

ANURAG
Supdt. of Police (Pers.)

The 26th August 2008

No. DP/PERS.1/2008/136/3/29/2008 The President is pleased to appoint Shri Hemant Priyadarshi, IPS (RI : 1993), as Deputy Inspector General of Police in the Central Bureau of Investigation, with effect from the forenoon of 07.08.2008 for a period of five years i.e. upto 06.08.2013 or until further orders, whichever is earlier.

ANURAG
Supdt. of Police (Pers.)

New Delhi-110003, the 25th August 2008

No. DP/PERS.1/2008/135 A-20024/1/53 --Shri Thakuri relinquished charge of the post of Addl Legal Adviser, CBI with effect from 31.07.2008 (AN) on attaining the age of superannuation.

M. SACHDEV
Admin. Officer (Pers.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DIRECTORATE OF FORENSIC SCIENCE
New Delhi-110003, the 19th Aug 2008

No. 11-17-2006-Adm. (FS) The President is pleased to appoint Shri Nandak Uan Pate as Assistant Government Examiner of Questioned Documents in the Office of Government Examiner of Questioned Documents, Kolkata under the Directorate of Forensic Science with effect from 29.05.2008 (Forenoon) in an officiating capacity in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/-.

Dr. M. S. RAO
Director-cum-Chief Forensic Scientist

DIRECTORATE GENERAL, CRPF
New Delhi, the 21st Aug 2008

No. D.1.6/2008-Pers. I Consequent on his selection for appointment to the post of Under Secretary (Class-I Executive Cadre) in Cabinet Secretariat for a period of 4 years on deputation basis vide Cabinet Secretariat Order No. 2/7/2007-DO.1(A)-1385 dated 06.08.2008, services of Shri N. Sadanandan, Deputy Commandant, (IRLA-4817), of 103 RAF Bn. CRPF, is placed at the disposal of Cabinet Secretariat, Govt. of India from 26.07.2008 (AN).

RAMESH CHANDRA
DRGP (Pers.)

DIRECTORATE GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
New Delhi, the 20th Aug 2008

No. E-16013/1/102-Pers.II/190 On repatriation to parent cadre, Shri Kuldeep Kumar, IPS (MT : 1985), Deputy

Inspector General, CISF relinquished the charge of the post of DIG, CISF unit OSGC Nazira, in the afternoon of 11.07.2008 (AN).

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT
ECONOMIC & SERVICE MINISTRIES
New Delhi-110002, the 21st Aug 2008

No. AMG-I/Adm.1.2(S) Vol.III-97-2008/342 --The Principal Director of Audit, Economic and Service Ministries, New Delhi has ordered promotion of the following Section Officers as Assistant Audit Officer (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 7,450-235-11,500/- from the date shown against them:—

| Sl. No | Name | Date of promotion |
|--------|---------------------|-------------------|
| | S/Shri | |
| 1. | Jai Pal | 28.03.2008 |
| 2. | Sudhir Kant Sharma | 28.03.2008 |
| 3. | Lalit Kumar Nimbhal | 28.03.2008 |

CHANDRA MOHAN
Director (Adm.)

DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF DEFENCE
ACCOUNTS

New Delhi-110005, the 14th Jul 2008

No. AN-1/1402-1/XIV The following probationers have been confirmed in the Junior Time Scale of the Indian Defence Accounts Service with effect from the dates shown against each:—

| Sl. No. | Name | Date of Confirmation |
|---------|------------------------|----------------------|
| | S/Shri | |
| 1. | Dev Prakash Bannanavat | 10.01.2007 |
| 2. | Nabaruna Dhar | 01.08.2007 |
| 3. | Sangeet | 01.08.2007 |
| 4. | Balram Kumar | 16.11.2007 |
| 5. | MS Saravanan | 01.08.2007 |
| 6. | Puneet Sharma | 22.08.2007 |
| 7. | Sanjay Kumar | 02.01.2008 |
| 8. | T Kabilan | 26.12.2007 |
| 9. | B Ramesh | 26.12.2007 |
| 10. | Rajesh K Meena | 26.12.2007 |

SUBHAS MONDAL
Asstt. CGDA (Admin.)

No. AN-I/1467/5/III(G)—The Controller General of Defence Accounts, New Delhi regrets to notify the sad demise of Shri Satyendra Nath Das on 06th June, 2008. The Officer has accordingly been struck off the strength of the Defence Accounts Department with effect from 07th June, 2008 (FN).

SUBHAS MONDAL
Asstt. CGDA (Admin.)

No. AN-I/1467/5/III(G)—Shri K. A. Mathai, an officer of the Indian Defence Accounts Service, who has proceeded on voluntary retirement from Government service on 01.07.2008 (FN), has been struck off the strength of Defence Accounts Department and accordingly transferred to the Pension Establishment with effect from 01.07.2008.

SUBHAS MONDAL
Asstt. CGDA (Admin.)

The 18th July 2008

No. AN-I/1172/1/XX/2008-09—The President is pleased to appoint the undermentioned officers of the Indian Defence Accounts Service, to the Senior Administrative Grade (Scale of Pay of Rs. 18,400-500-22,400/-) of that Service, with effect from the dates indicated against their names and until further orders:—

| Sl. No. | Name of the Officer | Date from which appointed to the Sr. Administrative Grade | Remarks |
|---------|-----------------------|---|--------------------|
| S/Shri | | | |
| 1. | Saroj Kumar | 16.06.2008 | |
| 2. | ZVS Prasad | 16.06.2008 | |
| 3. | Shharat Sharma | 12.06.2008 | |
| 4. | P Ravi Kumar | 12.06.2008 | |
| 5. | Mayank Sharma | 16.06.2008 | |
| 6. | AV Rao | 11.06.2008 | Proforma Promotion |
| 7. | SS Pondharkar | 16.06.2008 | |
| 8. | (Smt.) Arti Bhatnagar | 23.06.2008 | Proforma Promotion |
| 9. | Rakesh Kumar | 23.06.2008 | |
| 10. | RK Arora | 30.06.2008 | |
| 11. | Vishvajit Sahay | 11.06.2008 | |

SUBHAS MONDAL
Asstt. CGDA (Admin.)

The 23rd July 2008

No. AN-I/1424/4/XXV (Pt. II)—The President is pleased to appoint the undermentioned Senior Accounts Officers (Group 'B') (Rs. 8,000-275-13,500/-) to the regular cadre of the Indian Defence Accounts Service in the Junior Time Scale

(Rs. 8,000-275-13,500/-) of that Service, with effect from the dates indicated against their names and until further orders:—

| Sl. No. | Name of the Officer | Date of Promotion | Remarks |
|---------|------------------------|-------------------|--------------------|
| S/Shri | | | |
| 1. | TL Srinivasa Rao | 08.05.2008 | |
| 2. | Naresh Chand Gupta | 28.02.2008 | Proforma promotion |
| 3. | Joseph Luke | 28.02.2008 | |
| 4. | TA Narayanan | 28.02.2008 | |
| 5. | JP Verma | 29.02.2008 | |
| 6. | Jugajatri Gangopadhyay | 03.03.2008 | |
| 7. | PV Vaidyanathan | 07.03.2008 | |
| 8. | KK Kashyap | 12.03.2008 | |
| 9. | V Rajagopalan | 28.02.2008 | |
| 10. | MS Jain | 30.06.2008 | |

SUBHAS MONDAL
Asstt. CGDA (Admin.)

The 31st July 2008

No. AN-I/1467/5/III(G)—The undermentioned eleven (11) officers of the Indian Defence Accounts Service, who have attained the age of superannuation, have been retired and struck off the strength of Defence Accounts Departments on the dates shown in column (4) and accordingly transferred to the Pension Establishment with effect from the date shown against each in column (5):—

| Sl. No. | Name of the Officer | Date of Birth | Date of retirement | Date of transfer to Pension Estt. |
|---------|---------------------|---------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| S/Shri | | | | |
| 1. | D. S. Meena | 01.07.1948 | 30.06.2008 | 01.07.2008 |
| 2. | S. B. Budhatrao | 02.06.1948 | 30.06.2008 | 01.07.2008 |
| 3. | P. M. Kale | 01.07.1948 | 30.06.2008 | 01.07.2008 |
| 4. | A. D. Meshram | 14.06.1948 | 30.06.2008 | 01.07.2008 |
| 5. | K. Rangaraju | 17.06.1948 | 30.06.2008 | 01.07.2008 |
| 6. | J. Prakasa Rao | 01.07.1948 | 30.06.2008 | 01.07.2008 |
| 7. | J. K. Raslogi | 13.06.1948 | 30.06.2008 | 01.07.2008 |
| 8. | S. A. Mariadoss | 13.06.1948 | 30.06.2008 | 01.07.2008 |
| 9. | (Smt.) M. K. Bhasin | 30.06.1948 | 30.06.2008 | 01.07.2008 |
| 10. | K. Unnikrishnan | 01.07.1948 | 30.06.2008 | 01.07.2008 |
| 11. | P. Venkateswarulu | 30.06.1948 | 30.06.2008 | 01.07.2008 |

SUBHAS MONDAL
Asstt. CGDA (Admin.)

The 5th August 2008

No. AN-I/1467/5/III(G)—Shri B. M. Kedar, an officer of the Indian Defence Accounts Service, who has proceeded

on voluntary retirement from Government service on 01.08.2008 (FN), has been struck off the strength of Defence Accounts Department and accordingly transferred to the Pension Establishment with effect from 01.08.2008.

SUBHAS MONTAI
Asstt. CGDA (Admin.)

MINISTRY OF TEXTILES

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER FOR HANDLOOMS

New Delhi, the 21st August 2008

No. A-11025-4/2007-DC HL-Estt.-II.—The President is pleased to appoint Shri Vishesh Nautiyal as Deputy Director (Processing) in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- in the Weavers' Service Centre, Srinagar w.e.f. 01.07.2008 and further orders.

SOHAN KUMAR JHA
Add. Development Commissioner (Handlooms)

No. A-11025-3/2007-DC HL-Estt.-II.—The President is pleased to appoint Shri C. Muthusamy as Deputy Director (Weaving) in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- in the Weavers' Service Centre, Delhi w.e.f. 07.07.2008 until further orders.

SOHAN KUMAR JHA
Add. Development Commissioner (Handlooms)

No. A-23023-2/2007-DC HL-Estt.-II.—The President is pleased to appoint Shri R. Sunder Raju as Assistant Director Grade-I (Designs) in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in the Weavers' Service Centre, Bhubaneswar w.e.f. 14.07.2008 until further orders.

SOHAN KUMAR JHA
Add. Development Commissioner (Handlooms)

SURVEY OF INDIA

SURVEYOR GENERAL'S OFFICE

Dehradun-248001, the 14th August 2008

No. C-3535/744-SOS(A)(1)—The undermentioned Group 'C' Stores Assistant are hereby promoted as Assistant Stores Officer (G. C. S. Group 'B' Post) in Survey of India in the Pay Scale of Rs. 5,500-175-9,000 on regular basis with effect from the date(s) as shown against their names:—

| Sl. No. | Name | Date of Promotion |
|---------|----------------------------|-------------------|
| 1. | Shri R. Rama Rao | 14.05.2008 |
| 2. | Shri Ram Prasad Oraaw (ST) | 04.06.2008 |

Dr. P. N. AG
Surveyor General of India

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-85, the 13th August 2008

No. PD/7(5)/2007-Adm-5072/5.—The Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri K. Raveendran, Scientific Assistant (C) of Bhabha Atomic Research Centre as Scientific Officer Engineer Grade 'SR' in the scale of pay of Rs. 7,450-225-11,560/- in the same Research Centre with effect from the forenoon of February 1, 2007 in an officiating capacity, until further orders.

D. RAMESH
Dy. Establishment Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400011, the 12th August 2008

No. 6(2366)/03/Adm-570.—Principal Adviser to the Government of India, Department of Atomic Energy (DAE), hereby appoints Smt. S. Jayakumari, Assistant (scale of pay Rs. 5,500-175-9,000/-) Administrative Training Institute (ATI), DAE as Assistant Personnel Officer in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- in ATI, DAE Secretariat, Mumbai with effect from 01st August 2008 (FN) until further orders.

P. P. MADHAVAN KUTTY
Under Secy.

The 14th August 2008

No. 6(2486)/2008/Adm-575.—The President is pleased to appoint Shri Mohan Singh, Assistant Personnel Officer (scale of pay Rs. 6,500-200-10,500/-), Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai as Officer-on-Special Duty in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in the Department of Atomic Energy Branch Secretariat, New Delhi with effect from the forenoon of 21st July 2008.

P. P. MADHAVAN KUTTY
Under Secy.

The 20th August 2008

No. 6(2487)/2008/Adm-895.—Principal Adviser to the Government of India, Department of Atomic Energy (DAE), hereby appoints Shri Mathew M. John, Assistant Personnel Officer (Scale of pay Rs. 6,500-200-10,500/-), Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai as Section Officer in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- in the Department of Atomic Energy Secretariat, Mumbai with effect from the forenoon of 11th August 2008.

P. P. MADHAVAN KUTTY
Under Secy.

ATOMIC ENERGY REGULATORY BOARD

Mumbai-400011, the 12th August 2008

No. AERB/Adm G 229.—Chairman, Atomic Energy Regulatory Board appoints Shri Shekhar V. Chavan,

Assistant, Department of Atomic Energy to officiate as Assistant Personnel Officer (Scale of Pay Rs. 6,500-200-10,500/-) in the Atomic Energy Regulatory Board on regular basis, with effect from the forenoon of 8th August, 2008 until further orders.

V. M. THOMAS
Administrative Officer-III

INDIRA GANDHI CENTRE FOR ATOMIC RESEARCH

Kalpakkam-603102, the 4th August 2008

No. IGC/PP/6752/2008-R—The President is pleased to appoint Shri Sandeep Singh in Indira Gandhi Centre for Atomic Research, kalpakkam of this Department as Scientific Officer/Engineer Grade 'D' on an initial pay of Rs. 10,650/- in the scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the forenoon of 17.06.2008 in a temporary capacity until further orders.

V. DAYALAN
Chief Administrative Officer

DEPARTMENT OF SPACE

VIKRAM SARABHAI SPACE CENTRE

Thiruvananthapuram-695022, the 13th August 2008

No. VSSC/EST/F/1(17)—Controller, Vikram Sarabhai Space Centre (VSSC), Thiruvananthapuram hereby appoints on promotion Smt. Kumari Lekha R As Personal Secretary in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- in VSSC with effect from 05.08.2008 (FN), until further orders.

V. DEVADASAN
Sr. Administrative Officer

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi-110003, the 25th August 2008

No. A-32013/14/2007-E.II—The President is pleased to appoint Shri J.S. Rawat, Director of Operations in the Office of the Director General of Civil Aviation to the post of Deputy Director General in the pay scale of Rs. 16,400-450-20,000/- on regular basis with effect from the forenoon of 18th August 2008 until further orders.

MEENA SHARMA
Dy. Director of Administration

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Aravali Buildcon Private Limited

Jaipur, the 28th July 2008

No. ROC/JPR/560/16177/1203—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies

Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Aravali Buildcon Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

R. C. MISHRA
Asstt. Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Welkin Fincap Private Limited

Jaipur, the 31st July 2008

No. ROC/JPR/560/12199/1223—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Welkin Fincap Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

R. C. MISHRA
Asstt. Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Mainland Marketing Private Limited

Jaipur, the 6th August 2008

No. ROC/JPR/560/19340/1317—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mainland Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

R. C. MISHRA
Asstt. Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Mewat Carpet Producer Company Limited

Jaipur, the 7th August 2008

No. ROC/JPR/560/26049/1322—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mewat Producer Company Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

R. C. MISHRA
Asstt. Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies:

Ahmedabad-380013, the 20th August 2008

No. ROC/GUJ/u/s560/2007-08—Notice is hereby given pursuant to the sub-section (5) of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies have this day been struck off from the Registrar of Companies, and the said Companies shall stand dissolved:—

| Sl. No. | Regd. No. | Name of the Company |
|---------|-----------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 13740 | M/s. Pansuria Builders Pvt. Ltd. |
| 2. | 13068 | M/s. Kinnary Apartment Pvt. Ltd. |
| 3. | 13228 | M/s. Nikunj Housing Complex Pvt. Ltd. |
| 4. | 12834 | M/s. Kartik Complex Pvt. Ltd. |
| 5. | 45120 | M/s. Nest Infrastructure Pvt. Ltd. |
| 6. | 48724 | M/s. Raj Safe Pvt. Ltd. |

R. V. DANI
Registrar of Companies
Gujarat, Dadar & Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. M. K. Koilamani Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 625/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. M. K. Koilamani Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Taruni Marketing and Advertising Company Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 155/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Taruni Marketing and Advertising Company Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Jayem Retreads Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 418/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jayem Retreads Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Omigron Technical Products (India) Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 220/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Omigron Technical Products (India) Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Clipsal Lighting India Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 579/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Clipsal Lighting India Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Sidhivinayak Agro Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 424/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sidhivinayak Agro Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Deshpande Projects Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 467/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Deshpande Projects Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Maxyildplantations Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 119/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Maxyildplantations Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Chandrama Farm House Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 462/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Chandrama Farm House Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Navrang Farms Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 425/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Navrang Farms Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Unnati Plantation Industries Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 444/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Unnati Plantation Industries Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sunrise Poultry Farm Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 435/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sunrise Poultry Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jims Machines Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 101/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jims Machines Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Choubay Enterprises Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 53/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Choubay Enterprises Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Beco Plant Vessel and Cranes Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 85/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Beco Plant Vessel and Cranes Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. The Great Western Shipping Agencies Private
Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 265/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. The Great Western Shipping Agencies Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shasol Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 29/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shasol Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Genda Farms Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 479/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Genda Farms Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Balram Agri Tech Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 447/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shree Balram Agri Tech Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ramtek Agri Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 342/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ramtek Agri Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Subudhi Textile and Chemicals Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 649/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Subudhi Textile and Chemicals Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Unigrip Health and Rehab Products Private
Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 161/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Unigrip Health and Rehab Products Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Sai Tex Twist Industries Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 271/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shree Sai Tex Twist Industries Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Indus Exim Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 105/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Indus Exim Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Evermore Savings Investments and Marketing
Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 325/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Evermore Savings Investments and Marketing Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Perfect Injectors Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 478/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Perfect Injectors Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Banco Exports Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 115/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Banco Exports Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. R. D. Patel and Company Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 252/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. R. D. Patel and Company Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Uday Trading Company Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 278/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Uday Trading Company Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Enjay Financers Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 132/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Enjay Financers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Him Solechem Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 239/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Him Solechem Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shri Mayuresh Finance Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 8/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shri Mayuresh Finance Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sahyadri Aqua Min. Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 357/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sahyadri Aqua Min. Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sanil Tours and Travels Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 308/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that

the name of M/s. Sanil Tours and Travels Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Surya Chakra Fincap and Investment Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 352/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Surya Chakra Fincap and Investment Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Signature Jewel Watch Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 339/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Signature Jewel Watch Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vesat Medica Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 133/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vesat Medica Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Structech Consulting Engineers Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 423/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Structech Consulting Engineers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Tej Mosquito Mats and Repellants Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 481/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Tej Mosquito Mats and Repellants Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vedant Herbal and Plants Formulation Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 195/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vedant Herbal and Plants Formulation Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Reliant Trade and Exports Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 201/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Reliant Trade and Exports Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Asven Exports Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 186/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Asven Exports Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. J. V. S. Marine Products Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 169/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. J. V. S. Marine Products Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Acumen Spares and Services Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 880/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Acumen Spares and Services Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Genesis Cement Projects Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 179/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Genesis Cement Projects Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vir View Tex Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 315/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vir View Tex Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dwarsons Engineering Company Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 61/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dwarsons Engineering Company Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sweeton Fabrics Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 475/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sweeton Fabrics Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Secure-Life (India) Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 82/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Secure-Life (India) Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nimol Textiles Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 507/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Nimol Textiles Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. E Valley Solutions Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 116/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. E Valley Solutions Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pardi Creation Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 537/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Pardi Creation Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Heena Cattle Farming Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 575/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Heena Cattle Farming Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Swami Samarth Trading Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 564/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shree Swami Samarth Trading Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mangal Din Leasing and Finance Company
Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 69/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mangal Din Leasing and Finance Company Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Omkarnath Builders and Developers Private
Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 271/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Omkarnath Builders and Developers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bankey Singh Security Guard Services Private
Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 215/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bankey Singh Security Guard Services Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Unicorn Management and Consultancy Private
Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 349/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Unicorn Management and Consultancy Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Priya Structural Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 681/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Priya Structural Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Utsav Chemicals Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 534/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Utsav Chemicals Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gonics Marketing Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 118/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Gonics Marketing Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sus Operations Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 548/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sus Operations Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Akalmash Impex Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 731/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Akalmash Impex Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Body Care Cosmetics Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 701/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Body Care Cosmetics Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sai Vijaya Engineering Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 696/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sai Vijaya Engineering Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Makewell Packaging Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 690/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Makewell Packaging Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Zen Packaging Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 471/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Zen Packaging Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sisam Agro Products Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 8/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sisam Agro Products Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Indrayani General Trading Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 275/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Indrayani General Trading Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Supreme Farms Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 10/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Supreme Farms Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Prem Impex Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 478/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Prem Impex Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kode Chemicals Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 117/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kode Chemicals Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shivaashish Leafin Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 491/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shivaashish Leafin Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. J. K. Realty and Construction Company Private
Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 499/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. J. K. Realty and Construction Company Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hanse Marketing and Management Services
Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 511/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Hanse Marketing and Management Services Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ideal Print Trends Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 518/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ideal Print Trends Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Figurehead Finance Supermarket Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 432/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Figurehead Finance Supermarket Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Infa Communication Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 551/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Infa Communication Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ayyappa Marketing Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 755/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ayyappa Marketing Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ganga Vihar Developers Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 613/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ganga Vihar Developers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Patea Leasing Company Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 505/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Patea Leasing Company Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sidham Trade and Investment Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 436/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sidham Trade and Investment Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shaha's Frozen Foods Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 705/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shaha's Frozen Foods Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Earnest Fintrade and Investment Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 515/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Earnest Fintrade and Investment Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Adventure Agro Products Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 26/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Adventure Agro Products Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sai Krish Exports Private Limited.

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 301/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sai Krish Exports Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Krushak Oleoresins Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 460/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Krushak Oleoresins Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Glendale Plantations Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 76/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Glendale Plantations Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Karimalai Finance Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 479/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Karimalai Finance Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Chennai Bottling Company Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 534/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Chennai Bottling Company Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gunjan Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 527/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Gunjan Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. B. N. Mehta Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 513/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. B. N. Mehta Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hadeny Laboratories (India) Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 696/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Hadeny Laboratories (India) Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Highlands Agro-Development Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 84/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Highlands Agro-Development Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gokal Agro Inputs Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 87/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Gokal Agro Inputs Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Garden Fresh Agro Produce Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 93/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Garden Fresh Agro Produce Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Garden Fresh Agro Industries Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 100/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Garden Fresh Agro Industries Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Biosense Crop Protection (India) Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 49/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Biosense Crop Protection (India) Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Daisi Farms Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 91/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Daisi Farms Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Radian Agro-Industries Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 316/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Radian Agro-Industries Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rafna Marketing and Management Services Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 306/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rafna Marketing and Management Services Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Marathwada Krishi Udyog Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 296/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Marathwada Krishi Udyog Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Yaduvansh Constructions Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 603/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Yaduvansh Constructions Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Heritage Homes Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 75/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Heritage Homes Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Panvel Auto Ancillaries Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 566/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Panvel Auto Ancillaries Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sai Shilp Realtors Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 47/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sai Shilp Realtors Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. M. V. R. and Son Infrastructure Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 88/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. M. V. R. and Son Infrastructure Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sonika Music and Art Films Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 650/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sonika Music and Art Films Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Flic Impex Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 29/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Flic Impex Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Red Apple Agri Products Private Limited.

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 102/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Red Apple Agri Products Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Green Gold Biotech (India) Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 487/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Green Gold Biotech (India) Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shreehari Enterprises Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 1164/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shreehari Enterprises Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Deewan Goat Farms (Nashik) Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 1156/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Deewan Goat Farms (Nashik) Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vazir Mercantile Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 482/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vazir Mercantile Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kokan Infrastructural Projects Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 444/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kokan Infrastructural Projects Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mahankal Printer Ribbons Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 500/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mahankal Printer Ribbons Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Fawn Impex Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 371/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Fawn Impex Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Magnetic Assembly (India) Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 331/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Magnetic Assembly (India) Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sahas Shares and Stocks Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 318/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sahas Shares and Stocks Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bluevalley Leasing Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 283/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bluevalley Leasing Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Aditya Apparels Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 310/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Aditya Apparels Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ranij Savings and Marketing Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 325/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ranij Savings and Marketing Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Flair Marine Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 204/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Flair Marine Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Deputy Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mansi Synthetics Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 280/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mansi Synthetics Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

DEVENDER KUMAR GUPTA
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. AWS Consultants and Engineers Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 207/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. AWS Consultants and Engineers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Deputy Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Cenograph Construction Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 220/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Cenograph Construction Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Deputy Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Marvel Marcons Engineering Works Private
Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 245/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Marvel Marcons Engineering Works Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Deputy Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. S. P. Auto Engineering Works Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 263/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. S. P. Auto Engineering Works Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Deputy Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Patil and Roehlani Finance Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 292/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Patil and Roehlani Finance Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Deputy Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Eternity Projects Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 332/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Eternity Projects Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Deputy Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Millennium Aerospace Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 31/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Millennium Aerospace Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Deputy Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Eternity Projects Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 304/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Eternity Projects Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Deputy Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Millennium Aerospace Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 133/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Millennium Aerospace Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Deputy Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kent Financial Services Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 192/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kent Financial Services Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Deputy Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Highgrade Properties Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 210/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Highgrade Properties Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Deputy Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Unique Polyplast Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 105/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Unique Polyplast Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Deputy Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sandmar Engineering Associates Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 118/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sandmar Engineering Associates Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Deputy Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Suresh P. Rao Engineering and Contracting
Company Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 125/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Suresh P. Rao Engineering and Contracting Company Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Deputy Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Tarkeshwar Mines and Plantations Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 143/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Tarkeshwar Mines and Plantations Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Deputy Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. DS Labs Chemicals Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 197/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. DS Labs Chemicals Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Deputy Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Wiztech Computers Private Limited

Mumbai-400002, the 16th April 2008

No. 539/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Wiztech Computers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SHRIRAM MOTIRAM SAINDANE
Deputy Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Saab Engineers and Foundry Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00067/RVG/
1751(1)--Notice is hereby given pursuant to sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at
the expiration of three months from the date hereof the
name of M/s. Saab Engineers and Foundry Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Avanti Mining Tools Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00006/RVG/
1752(1)--Notice is hereby given pursuant to sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at
the expiration of three months from the date hereof the
name of M/s. Avanti Mining Tools Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Chairanya Kaniphnatg Paper Mills Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00077/RVG/
1753(1)--Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Chairanya Kaniphnatg Paper Mills Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Advanced Cast Masters Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00073/RVG/
1754(1)--Notice is hereby given pursuant to sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at

the expiration of three months from the date hereof the
name of M/s. Advanced Cast Masters Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
the register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shyanal Shree Films Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00059/RVG/
1755(1)--Notice is hereby given pursuant to sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at
the expiration of three months from the date hereof the
name of M/s. Shyanal Shree Films Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Olympia Metal Engineering Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00067/RVG/
1756(1)--Notice is hereby given pursuant to sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at
the expiration of three months from the date hereof the
name of M/s. Olympia Metal Engineering Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. V. J. Textiles Mills Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00014/RVG/
1757(1)--Notice is hereby given pursuant to sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at
the expiration of three months from the date hereof the
name of M/s. V. J. Textiles Mills Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Dighe Electronics Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00040/RVG/
1758(I)—Notice is hereby given pursuant to sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at
the expiration of three months from the date hereof the
name of M/s. Dighe Electronics Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Innovative Wax Products Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00033/RVG/
1759(I)—Notice is hereby given pursuant to sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at
the expiration of three months from the date hereof the
name of M/s. Innovative Wax Products Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Golden Nugget-Chemiplast Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00005/RVG/
1760(I)—Notice is hereby given pursuant to sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at
the expiration of three months from the date hereof the
name of M/s. Golden Nugget-Chemiplast Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajee Farms and Properties Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00088/RVG/
1761(I)—Notice is hereby given pursuant to sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at
the expiration of three months from the date hereof the

name of M/s. Rajee Farms and Properties Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sampada Castings Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00006/RVG/
1762(I)—Notice is hereby given pursuant to sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at
the expiration of three months from the date hereof the
name of M/s. Sampada Castings Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Joshi Precision Machines Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00090/RVG/
1763(I)—Notice is hereby given pursuant to sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at
the expiration of three months from the date hereof the
name of M/s. Joshi Precision Machines Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Josh Fire-Fighting Equipments Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00089/RVG/
1764(I)—Notice is hereby given pursuant to sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at
the expiration of three months from the date hereof the
name of M/s. Josh Fire-Fighting Equipments Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sahney Hotels Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA-RoC-Pune/sec 560/2007/00084/RVG/
1765(I)—Notice is hereby given pursuant to sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at
the expiration of three months from the date hereof the
name of M/s. Sahney Hotels Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. T. M. Steel Works Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA-RoC-Pune/sec 560/2007/00083/RVG/
1766(I)—Notice is hereby given pursuant to sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at
the expiration of three months from the date hereof the
name of M/s. T. M. Steel Works Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Andhra Electronic Industries Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA-RoC-Pune/sec 560/2007/00082/RVG/
1767(I)—Notice is hereby given pursuant to sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at
the expiration of three months from the date hereof the
name of M/s. Andhra Electronic Industries Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Narmada Nylons Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA-RoC-Pune/sec 560/2007/00081/RVG/
1768(I)—Notice is hereby given pursuant to sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at
the expiration of three months from the date hereof the

name of M/s. Narmada Nylons Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rubicon Metoplast Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA-RoC-Pune/sec 560/2007/00080/RVG/
1769(I)—Notice is hereby given pursuant to sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at
the expiration of three months from the date hereof the
name of M/s. Rubicon Metoplast Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. West Coast Travels Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA-RoC-Pune/sec 560/2007/00078/RVG/
1770(I)—Notice is hereby given pursuant to sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at
the expiration of three months from the date hereof the
name of M/s. West Coast Travels Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sahyadri Structural Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA-RoC-Pune/sec 560/2007/00007/RVG/
1771(I)—Notice is hereby given pursuant to sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at
the expiration of three months from the date hereof the
name of M/s. Sahyadri Structural Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Miraj Glass Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00008/RVG/
1772(I)—Notice is hereby given pursuant to sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at
the expiration of three months from the date hereof the
name of M/s. Miraj Glass Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Western Micro Fertilisers Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00086/RVG/
1773(I)—Notice is hereby given pursuant to sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at
the expiration of three months from the date hereof the
name of M/s. Western Micro Fertilisers Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Maneesha Chitra Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00085/RVG/
1774(I)—Notice is hereby given pursuant to sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at
the expiration of three months from the date hereof the
name of M/s. Maneesha Chitra Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Aqnatech Engineers Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00087/RVG/
1775(I)—Notice is hereby given pursuant to sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at
the expiration of three months from the date hereof the

name of M/s. Aqnatech Engineers Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sagittarius Movies Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00005/RVG/
1776(I)—Notice is hereby given pursuant to sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at
the expiration of three months from the date hereof the
name of M/s. Sagittarius Movies Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Pittle Tooles Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00009/RVG/
1777(I)—Notice is hereby given pursuant to sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at
the expiration of three months from the date hereof the
name of M/s. Pittle Tooles Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Coveco Vehicles Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00002/RVG/
1778(I)—Notice is hereby given pursuant to sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at
the expiration of three months from the date hereof the
name of M/s. Coveco Vehicles Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Mats Press Metal Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA RoC-Pune/sec 560/2007/00079/VVG/1779(I) Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Mats Press Metal Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Navracama Engineering Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA RoC-Pune/sec 560/2007/00004/VVG/1780(I)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Navracama Engineering Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sushree Chemicals Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA RoC-Pune/sec 560/2007/00179/VVG/1781(I)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sushree Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Swami Samarth Packaging Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA RoC-Pune/sec 560/2007/00188/VVG/1782(I) Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the

name of M/s. Shree Swami Samarth Packaging Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shilpak Constructions Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA RoC-Pune/sec 560/2007/00189/VVG/1783(I)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shilpak Constructions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kovles Pharmaceuticals Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA RoC-Pune/sec 560/2007/00194/VVG/1784(I)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kovles Pharmaceuticals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Flash Long Electricals Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA RoC-Pune/sec 560/2007/00209/VVG/1785(I)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Flash Long Electricals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Prabin Gupte Constructions Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00229/VVG/
1786(1)—Notice is hereby given pursuant to sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at
the expiration of three months from the date hereof the
name of M/s. Prabin Gupte Constructions Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR

Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ajit Ravetkar and Company (Builders) Private
Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00221/VVG/
1787(1)—Notice is hereby given pursuant to sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at
the expiration of three months from the date hereof the
name of M/s. Ajit Ravetkar and Company (Builders) Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be
struck off the register and the said company will be
dissolved.

V. P. KATKAR

Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. AD Vent (Advertising) Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00238/VVG/
1788(1)—Notice is hereby given pursuant to sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at
the expiration of three months from the date hereof the
name of M/s. AD Vent (Advertising) Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR

Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Pune Industrial Services Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00239/VVG/
1789(1)—Notice is hereby given pursuant to sub-section

(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at
the expiration of three months from the date hereof the
name of M/s. Pune Industrial Services Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR

Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Vrindavan Milk Products Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00245/VVG/
1790(1)—Notice is hereby given pursuant to sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at
the expiration of three months from the date hereof the
name of M/s. Vrindavan Milk Products Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR

Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Aries Estates Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00242/VVG/
1791(1)—Notice is hereby given pursuant to sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at
the expiration of three months from the date hereof the
name of M/s. Aries Estates Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR

Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shiom Textile Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00254/VVG/
1792(1)—Notice is hereby given pursuant to sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at
the expiration of three months from the date hereof the
name of M/s. Shiom Textile Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR

Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Raashli Cements Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00257/VVG/1793(I)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Raashli Cements Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shahana Poultry Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00252/VVG/1794(I)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shahana Poultry Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bizlink Marketing and Consultancy Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00250/VVG/1795(I)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bizlink Marketing and Consultancy Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Tonotronics (India) Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00347/VVG/1796(I)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at

the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Tonotronics (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Maruti Civil Works Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00352/VVG/1797(I)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Maruti Civil Works Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Anand Precast Sheets Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00356/VVG/1798(I)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Anand Precast Sheets Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Neel Kamal Holiday Homes Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00360/VVG/1799—I—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Neel Kamal Holiday Homes Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Matrix Systems Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00364/VVG/
1800—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Matrix Systems Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shilpa Drugs and Fine Chem Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00370/VVG/
1801—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Shilpa Drugs and Fine Chem Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Heads Electronic Systems Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00375/VVG/
1802—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Heads Electronic Systems Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhavani Engineers Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00421/VVG/
1803—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name

of M/s. Bhavani Engineers Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Perfect Special Purpose Machines Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00423/VVG/
1804—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Perfect Special Purpose Machines Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Pro Chem Specialist Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00428/VVG/
1805—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Pro Chem Specialist Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Maharashtra Electric Equipment Finishers Private
Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00430/VVG/
1806—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Maharashtra Electric Equipment Finishers Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be
struck off the register and the said company will be
dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Birnale Metal Industries Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00440/VVG/
1807—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Birnale Metal Industries Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Nava Maharashtra Containers Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00335/VVG/
1808—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Nava Maharashtra Containers Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kupwad Textiles Manufacturing and Processing
Company Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00401/VVG/
1809—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Kupwad Textiles Manufacturing and Processing
Company Private Limited unless cause is shown to the
contrary, will be struck off the register and the said company
will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sunflower Industrial Engineers Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00383/VVG/
1810—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Sunflower Industrial Engineers Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Karaveer Chemicals Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00377/VVG/
1811—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Karaveer Chemicals Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kolhapur Rubber Products Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00411/VVG/
1812—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Kolhapur Rubber Products Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rasheela Food Products Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00278/VVG/
1813—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Rasheela Food Products Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the register
and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Oasis Club Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00272/VVG/
1814—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Oasis Club Private Limited unless cause is shown
to the contrary, will be struck off the register and the said
company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Poona Udyog Precision Machining Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00289/VVG/
1815—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Poona Udyog Precision Machining Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Trusteeship Engineering Enterprises Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00291/VVG/
1816—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Trusteeship Engineering Enterprises Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Phoenix Computer Consultants Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00304/VVG/
1817—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name

of M/s. Phoenix Computer Consultants Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Vrishali Farms Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00307/VVG/
1818—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Vrishali Farms Private Limited unless cause is shown
to the contrary, will be struck off the register and the said
company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kelcom Farms Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00309/VVG/
1819—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Kelcom Farms Private Limited unless cause is shown
to the contrary, will be struck off the register and the said
company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kelkar Roses Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00314/VVG/
1820—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Kelkar Roses Private Limited unless cause is shown
to the contrary, will be struck off the register and the said
company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jodhpur Mills Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA-RoC-Pune/sec 560-2007/00330 VVC-1821 - Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jodhpur Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jodhpur Mills Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA-RoC-Pune/sec 560-2007/00331 VVC-1822 - Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jodhpur Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sona Hotels Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA-RoC-Pune/sec 560-2007/00332 VVC-1823 - Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sona Hotels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Polydecor Pune Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA-RoC-Pune/sec 560-2007/00334 VVC-1824 - Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name

of M/s. Polydecor Pune Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Silicon Technologies Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA-RoC-Pune/sec 560-2007/00330 VVC-1825 - Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Silicon Technologies Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Bhagirathi Roller Flour Mill Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA-RoC-Pune/sec 560-2007/00331 VVC-1826 - Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Bhagirathi Roller Flour Mill Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Polydecor Pune Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3) MCA-RoC-Pune/sec 560-2007/00334 VVC-1827 - Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Polydecor Pune Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Cygnus Electronics Industries Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00409/VVG/
1828—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Cygnus Electronics Industries Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Madhav Ball Milling Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00407/VVG/
1829—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Madhav Ball Milling Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Fine Procons Developers Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00406/VVG/
1830—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Fine Procons Developers Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ghorpade Bhor Constructions Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00099/VG/
1831—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name

of M/s. Ghorpade Bhor Constructions Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Flamingo Travels-N-Tours Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00102/VG/
1832—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Flamingo Travels-N-Tours Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Instakool Engineering Company Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00106/VG/
1833—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Instakool Engineering Company Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Erdmann Kumar Electrotechnik Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00375/VG/
1834—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Erdmann Kumar Electrotechnik Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Krishna Milk and Allied Products Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00059/VG/
1835—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Krishna Milk and Allied Products Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Satara Mechanical Works Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00049/VG/
1836—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Satara Mechanical Works Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Indocan Engineering Systems Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00110/VG/
1837—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Indocan Engineering Systems Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Melita Engineering Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00122/VG/
1838—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name

of M/s. Melita Engineering Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shandilya Agricultural and Hatcheries Private
Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00130/VG/
1839—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Shandilya Agricultural and Hatcheries Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Super Petro-Chem Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00144/VG/
1840—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Super Petro-Chem Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sun-Tech Abrasion Protection Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(2)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00146/VG/
1841—Notice is hereby given pursuant to sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at
the expiration of three months from the date hereof the
name of M/s. Sun-Tech Abrasion Protection Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Konkan Engineering Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00147/VG/
1842—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Konkan Engineering Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sancheti Consultants Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00154/VG/
1843—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Sancheti Consultants Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Ganga Irrigation Systems Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00060/SDP/
1844—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Ganga Irrigation Systems Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Nityaseva Constructions Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00056/SDP/
1845—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name

of M/s. Nityaseva Constructions Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Protocol Software (India) Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00039/SDP/
1846—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Protocol Software (India) Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sakhalikars Prakash Classes Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00036/SDP/
1847—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Sakhalikars Prakash Classes Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shri Deep Retraders Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00012/SDP/
1848—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Shri Deep Retraders Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kiran Blick Communications Private Limited

Pune-411004, the 31st December

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00292/VVG/
1870(I)—Notice is hereby given pursuant to sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at
the expiration of three months from the date hereof the
name of M/s. Kiran Blick Communications Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Mahalaxmi Founders Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00075/VVG/
1871(I)—Notice is hereby given pursuant to sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at
the expiration of three months from the date hereof the
name of M/s. Mahalaxmi Founders Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Hicalibre Computer Consultants Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00340/VVG/
1872(I)—Notice is hereby given pursuant to sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at
the expiration of three months from the date hereof the
name of M/s. Hicalibre Computer Consultants Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Dadhichi Agricultural Dairy Products Private
Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00447/VVG/
1873(I)—Notice is hereby given pursuant to sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at
the expiration of three months from the date hereof the

name of M/s. Dadhichi Agricultural Dairy Products Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be
struck off the register and the said company will be
dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Nanan Press Parts Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00450/VVG/
1874(I)—Notice is hereby given pursuant to sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at
the expiration of three months from the date hereof the
name of M/s. Nanan Press Parts Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Dhaumaya Agricultural and Poultry Products
Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00269/VVG/
1875(I)—Notice is hereby given pursuant to sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at
the expiration of three months from the date hereof the
name of M/s. Dhaumaya Agricultural and Poultry Products
Private Limited unless cause is shown to the contrary, will
be struck off the register and the said company will be
dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Vasishtha Agricultural Products Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00306/VVG/
1876(I)—Notice is hereby given pursuant to sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at
the expiration of three months from the date hereof the
name of M/s. Vasishtha Agricultural Products Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Midwest (Dakkhan) Equipments Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00287/1884(I)---
—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Midwest (Dakkhan) Equipments Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kanva Agricultural Products Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00303/VVG/
1885(I)---Notice is hereby given pursuant to sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name of
M/s. Kanva Agricultural Products Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the register
and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Deschon Controls and Systems Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00258/VVG/
1886(I)---Notice is hereby given pursuant to sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name of
M/s. Deschon Controls and Systems Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the register
and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sundew Home Appliances and Pace Electronics
Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00175/VVG/
1887(I)---Notice is hereby given pursuant to sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name of
M/s. Sundew Home Appliances and Pace Electronics Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck
off the register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pipasa Hidro Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00205/VVG/
1888---Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name of
M/s. Pipasa Hidro Private Limited unless cause is shown to
the contrary, will be struck off the register and the said
company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Effluent Chemical Consultants Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00219/VVG/
1889---Notice is hereby given pursuant to sub-section (3)
of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name of
M/s. Effluent Chemical Consultants Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the register
and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shivkripa Farms Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA RoC-Pune/sec 560/2007/00268/VVG/1890—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shivkripa Farms Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Bhuleshwar Farms Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA RoC-Pune/sec 560/2007/00260/VVG/1891—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shree Bhuleshwar Farms Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Jedhe Agro Chemicals Private Limited

Pune 411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA RoC-Pune/sec 560/2007/00265/VVG/1892—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jedhe Agro Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rothman Pharma Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA RoC-Pune/sec 560/2007/00263/VVG/1893—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name

of M/s. Rothman Pharma Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Rukm. Organics Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA RoC-Pune/sec 560/2007/00260/VVG/1894—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Rukm. Organics Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Laxmi Oxygen Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA RoC-Pune/sec 560/2007/00141/VVG/1895—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Laxmi Oxygen Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Sulaxmi Land Developers Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA RoC-Pune/sec 560/2007/00160/VVG/1896—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sulaxmi Land Developers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Safari Promoters and Builders Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00165/VVG/
1897(I)—Notice is hereby given pursuant to sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at
the expiration of three months from the date hereof the
name of M/s. Safari Promoters and Builders Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Hariprava Hotels and Resorts Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00281/VVG/
1898(I)—Notice is hereby given pursuant to sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at
the expiration of three months from the date hereof the
name of M/s. Hariprava Hotels and Resorts Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Orchard Food Products (India) Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00283/VVG/
1899(I)—Notice is hereby given pursuant to sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at
the expiration of three months from the date hereof the
name of M/s. Orchard Food Products (India) Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Orbit Constro (India) Private Limited

Pune-411004, the 31st December 2007

No. 560(3)/MCA/RoC-Pune/sec 560/2007/00403/VVG/
1900(I)—Notice is hereby given pursuant to sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at
the expiration of three months from the date hereof the

name of M/s. Orbit Constro (India) Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said company will be dissolved.

V. P. KATKAR
Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Minakshi Techno Private Limited

Shillong-793001, the 13th August 2008

No. AS005193 of 2008/179—Notice is hereby given
pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies
Act, 1956 that the name of M/s. Minakshi Techno Private
Limited has this day been struck off the register and the
said company is dissolved.

SWADHIN BARUA
Registrar of Companies
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Mata Metal and Allied Products Private
Limited

Shillong-793001, the 13th July 2008

No. AS008043 of 2008/180—Notice is hereby given
pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies
Act, 1956 that the name of M/s. Shree Mata Metal and
Allied Products Private Limited has this day been struck
off the register and the said company is dissolved.

SWADHIN BARUA
Registrar of Companies
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Peak Associates Private Limited

Shillong-793001, the 26th August 2008

No. 560(3)/MCA/RoC-Shillong/sec 560/2008/00549/181—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Peak Associates Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

SWADHIN BARUA
Registrar of Companies
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Khrabdhil Oil Field Services Private Limited

Shillong-793001, the 26th August 2008

No. AS007093 of 2008/182—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Khrabdhil Oil Field Services Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SWADHIN BARUA

Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Eastern Industrial Enterprises Limited

Shillong-793001, the 26th August 2008

No. AS002309 of 2008/183—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Eastern Industrial Enterprises Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SWADHIN BARUA

Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sakha Agro and Estate Developers Private Limited

Shillong-793001, the 26th August 2008

No. AS004583 of 2008/184—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sakha Agro and Estate Developers Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SWADHIN BARUA

Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. B and S Housing Finance Private Limited

Shillong-793001, the 26th August 2008

No. AS007094 of 2008/185—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. B and S Housing Finance Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SWADHIN BARUA

Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Purbanchal Breweries Limited

Shillong-793001, the 26th August 2008

No. AS001494 of 2008/186—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Purbanchal Breweries Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

SWADHIN BARUA

Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Chanso Prongo Tea Company Private Limited

Shillong-793001, the 26th August 2008

No. 560(3)/MCA/ROC-Shillong/sec 560/2008/187—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Chanso Prongo Tea Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

SWADHIN BARUA

Registrar of Companies

Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the
following Companies

Kochi, the 5th August 2008

No. u/s.560(3)/SM/ROC-Kochi/11531/2008—Notice is hereby given pursuant to the sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the names of the following Companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the register and the said companies will be dissolved:—

| Sl. No. | Co. No. | Name of the Company |
|---------|---------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 14440 | M/s. Matrix Automotives Pvt. Ltd. |
| 2. | 14449 | M/s. Cherthala Kuries Pvt. Ltd. |
| 3. | 14458 | M/s. Quorum Network Pvt. Ltd. |
| 4. | 14463 | M/s. Netpro Cyber Solutions Pvt. Ltd. |
| 5. | 14464 | M/s. Venus Bone Mill Pvt. Ltd. |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|-------|--|
| 6. | 14469 | M/s. Rohini Global Merchandise Pvt. Ltd. |
| 7. | 14474 | M/s. Kairali Import and Export Company Pvt. Ltd. |
| 8. | 14480 | M/s. Knet It Com Pvt. Ltd. |
| 9. | 14497 | M/s. Nyte Kids Pvt. Ltd. |
| 10. | 14498 | M/s. St Rose Vehicles Pvt. Ltd. |
| 11. | 14507 | M/s. Uppala Infotech Solutions Pvt. Ltd. |
| 12. | 14514 | M/s. Sea Chart Logistics Pvt. Ltd. |
| 13. | 14518 | M/s. Moolans Infotech Pvt. Ltd. |
| 14. | 14520 | M/s. Fep Marketing Pvt. Ltd. |
| 15. | 14525 | M/s. Sooryamanasm Estates and Farms Pvt. Ltd. |
| 16. | 14526 | M/s. Penta Comp and Security Vision Pvt. Ltd. |
| 17. | 14527 | M/s. Marari Village Beach Properties Pvt. Ltd. |
| 18. | 14533 | M/s. Imnaz Motors and Services Pvt. Ltd. |
| 19. | 14534 | M/s. Fortune Career Options Pvt. Ltd. |
| 20. | 14548 | M/s. Info Capitals Pvt. Ltd. |
| 21. | 14570 | M/s. Trios Exports Pvt. Ltd. |
| 22. | 14572 | M/s. Progressive Network Connections Pvt. Ltd. |
| 23. | 14577 | M/s. Trice Shipping South Pvt. Ltd. |
| 24. | 14581 | M/s. Trenders Kuries Pvt. Ltd. |
| 25. | 14585 | M/s. Splash Imports India Pvt. Ltd. |
| 26. | 14586 | M/s. Devipriya Kuries Pvt. Ltd. |
| 27. | 14593 | M/s. Kalady Commercial Syndicate Chits Pvt. Ltd. |
| 28. | 14594 | M/s. Infologix Integrated Pvt. Ltd. |

K. SREEKUMAR
Asstt. Registrar of Companies
Kerala

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies:

Kochi, the 13th August 2008

No. 560(5)/SM/ROC-Ekm/11825/2008—Notice is hereby given pursuant to the Sub-Section (5) of Section

560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies have this day been struck off the register and the said companies are dissolved :—

| Sl. No. | Co. No. | Name of the Company |
|---------|---------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 7724 | M/s. The Kattumpuram Finances Pvt. Ltd. |
| 2. | 8595 | M/s. Josco Foods Pvt. Ltd. |
| 3. | 8618 | M/s. Chakara Aqua Farms Pvt. Ltd. |
| 4. | 8631 | M/s. Kodungalloor Kuries Loans Pvt. Ltd. |
| 5. | 8671 | M/s. Bhavani Agro Farms Pvt. Ltd. |
| 6. | 8717 | M/s. More Real Estate and Property Developers Pvt. Ltd. |
| 7. | 8719 | M/s. Puman Apparels Pvt. Ltd. |
| 8. | 8739 | M/s. Parco Foods Pvt. Ltd. |
| 9. | 8819 | M/s. Born Tuf Rubbers Pvt. Ltd. |
| 10. | 8864 | M/s. Family Physical Fitness Pvt. Ltd. |
| 11. | 8917 | M/s. Neyyar Marketing Pvt. Ltd. |
| 12. | 8944 | M/s. Noahs Ark Trade Lines Pvt. Ltd. |
| 13. | 8957 | M/s. Greeco Constructions Pvt. Ltd. |
| 14. | 9025 | M/s. Associated Resources Development Company Pvt. Ltd. |
| 15. | 9035 | M/s. Fertu Sands India Grovers Pvt. Ltd. |
| 16. | 9056 | M/s. Aroma Hotels and Enterprises Pvt. Ltd. |
| 17. | 9059 | M/s. Command Properties Pvt. Ltd. |
| 18. | 9064 | M/s. Sai Resorts Pvt. Ltd. |
| 19. | 9066 | M/s. Rajat Realtors Pvt. Ltd. |
| 20. | 9078 | M/s. Billion Exports Pvt. Ltd. |
| 21. | 9106 | M/s. Far Reach Trade Services Pvt. Ltd. |
| 22. | 9165 | M/s. Aries Technical Services Pvt. Ltd. |
| 23. | 9190 | M/s. Dhanwanthari Remedies Pvt. Ltd. |
| 24. | 9194 | M/s. Lent's Lifting and Construction Services Pvt. Ltd. |
| 25. | 9208 | M/s. Golden Syndicate Pvt. Ltd. |
| 26. | 9215 | M/s. Kessia Builders and Property Developers Pvt. Ltd. |
| 27. | 9223 | M/s. Arathi Builders and Developers Pvt. Ltd. |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|------|--|
| 28. | 9235 | M/s. Highland Housing and Trade Pvt. Ltd. |
| 29. | 9243 | M/s. Sahitya Autotech Pvt. Ltd. |
| 30. | 9277 | M/s. Lekhandhara Builders and Traders Pvt. Ltd. |
| 31. | 9293 | M/s. Siddha Construction Company Pvt. Ltd. |
| 32. | 9301 | M/s. Family Insured Farm Pvt. Ltd. |
| 33. | 9315 | M/s. Kodurugallur Credits and Chns. Pvt. Ltd. |
| 34. | 9328 | M/s. Regalia India Pvt. Ltd. |
| 35. | 9246 | M/s. Flama Exports Pvt. Ltd. |
| 36. | 9279 | M/s. Meeto Tourist Aids Pvt. Ltd. |
| 37. | 9343 | M/s. Port Kuries and Loans Pvt. Ltd. |
| 38. | 9356 | M/s. Chittilappilly Kuries and Loans Pvt. Ltd. |
| 39. | 9358 | M/s. Jinfolek Pvt. Ltd. |
| 40. | 9365 | M/s. D. B. Apparels and Garments India Ltd. |
| 41. | 9396 | M/s. Sree Vyshnava Constructions Pvt. Ltd. |
| 42. | 9406 | M/s. Chronosign India Pvt. Ltd. |
| 43. | 9420 | M/s. South West Tourism Pvt. Ltd. |
| 44. | 9421 | M/s. Ayndhya Travels Pvt. Ltd. |
| 45. | 9450 | M/s. Gascon Pvt. Ltd. |
| 46. | 9461 | M/s. Carlowe Capital Ltd. |
| 47. | 9478 | M/s. Manchulal Kuries and Loans Pvt. Ltd. |
| 48. | 9495 | M/s. Spell Communications Pvt. Ltd. |
| 49. | 9502 | M/s. India Direct Exports Pvt. Ltd. |
| 50. | 9529 | M/s. Cochin Coatings and Fabrications Pvt. Ltd. |
| 51. | 9538 | M/s. Al Hidayat Reformers Pvt. Ltd. |
| 52. | 9539 | M/s. Southern Pipes Pvt. Ltd. |
| 53. | 9545 | M/s. Mc Via Engineering Pvt. Ltd. |
| 54. | 9555 | M/s. Prism Systems Pvt. Ltd. |
| 55. | 9562 | M/s. Chakkacheril Estates Pvt. Ltd. |
| 56. | 9568 | M/s. Bala Builders Pvt. Ltd. |
| 57. | 9585 | M/s. Baran Farms Pvt. Ltd. |
| 58. | 9592 | M/s. Worldwide Educational Consultants Pvt. Ltd. |
| 59. | 9623 | M/s. Guest Kuries and Loans Pvt. Ltd. |
| 60. | 9629 | M/s. Workfair Garments Pvt. Ltd. |
| 61. | 9632 | M/s. Vishwas Consultancy Services Pvt. Ltd. |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|------|--|
| 62. | 9636 | M/s. Jk. Sector Systems Pvt. Ltd. |
| 63. | 9646 | M/s. Mittal Foundation and Hospital Pvt. Ltd. |
| 64. | 9681 | M/s. Apex Finance and Loans Pvt. Ltd. |
| 65. | 9691 | M/s. Fort Pipes Pvt. Ltd. |
| 66. | 9716 | M/s. Arviz Farm Exports Pvt. Ltd. |
| 67. | 9740 | M/s. S. V. Exports Pvt. Ltd. |
| 68. | 9743 | M/s. KRS Sea Foods Pvt. Ltd. |
| 69. | 9756 | M/s. Filma Leaspee Pvt. Ltd. |
| 70. | 9757 | M/s. Navaraj Associates Pvt. Ltd. |
| 71. | 9761 | M/s. Rainbow Colour Lab Pvt. Ltd. |
| 72. | 9778 | M/s. Amoghia Transport Company Pvt. Ltd. |
| 73. | 9828 | M/s. Mahesh Resorts and Hotels India Pvt. Ltd. |
| 74. | 9834 | M/s. Queensland Constructions and Properties Pvt. Ltd. |
| 75. | 9887 | M/s. Middle East Fuel Links Pvt. Ltd. |
| 76. | 9891 | M/s. Marsh Land Marshallers Pvt. Ltd. |
| 77. | 9893 | M/s. Highlight India Tours Pvt. Ltd. |
| 78. | 9951 | M/s. Padma Apartments Pvt. Ltd. |
| 79. | 9966 | M/s. AMC Freight Carriers Pvt. Ltd. |
| 80. | 9993 | M/s. Toksel Exports Pvt. Ltd. |
| 81. | 9996 | M/s. Pallathalam Kuries and Loans Pvt. Ltd. |
| 82. | 9976 | M/s. India Review Ltd. |
| 83. | 9984 | M/s. Cochra Plastics Pvt. Ltd. |
| 84. | 9999 | M/s. Good Earth Agro Enterprises Pvt. Ltd. |

S. M. AMEERUL MILLATH
Registrar of Companies
Kerala

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Cauvery Services Private Limited

Ernakulam-682021, the 14th August 2008

No. 560(3)/MCA/ROC-Ernakulam/sec 560/2008-01231 --
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Cauvery Services Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

S. M. AMEERUL MILLATH
Registrar of Companies
Kerala and Lakshadweep

In the matter of Companies Act, 1956 and of
M/s. Kumaran Powders Private Limited

Chennai-600034, the 14th August 2008

No. 560(3)/MCA/RoC-Chennai/sec 560/2008/00172—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Kumaran Powders Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and
the said company will be dissolved.

N. S. PONNUNAMBI
Registrar of Companies
Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the
following Companies:

Bangalore-560034, the 28th August 2008

No. ROCB/560(3)/TA/JK/CVD/2008—Notice is
hereby given pursuant to the sub-section (3) of Section
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration
of three months from the date hereof the names of the
following Companies unless cause is shown to the
contrary, will be struck off from the register and the said
companies will be dissolved:—

| Sl. No. | Reg. No. | Name of the Company |
|---------|----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 14611 | M/s. Kalpavruksha Plantation India Ltd. |
| 2. | 4538 | M/s. Intel Technocrates Engineers and Consultants Pvt. Ltd. |
| 3. | 24666 | M/s. Karan Consulting Pvt. Ltd. |
| 4. | 8753 | M/s. Aatreya Laminations Pvt. Ltd. |
| 5. | 8971 | M/s. Aerodyne Engineers Pvt. Ltd. |
| 6. | 9990 | M/s. Abhishree Buildtech Pvt. Ltd. |
| 7. | 26702 | M/s. Pancha Rathna Softex Pvt. Ltd. |
| 8. | 25751 | M/s. Premier Hatcheries Pvt. Ltd. |
| 9. | 8887 | M/s. Khaitan Agencies Pvt. Ltd. |
| 10. | 8905 | M/s. Clarion Courier Service Pvt. Ltd. |
| 11. | 26353 | M/s. Infodesk Manipal Enterprises Pvt. Ltd. |
| 12. | 10830 | M/s. Sri Gurukrupa Electronics Pvt. Ltd. |
| 13. | 9234 | M/s. Infotek Combines Pvt. Ltd. |
| 14. | 11364 | M/s. Gowda Exim Pvt. Ltd. |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|-------|--|
| 15. | 9963 | M/s. Jay Cast Pvt. Ltd. |
| 16. | 9959 | M/s. Shree Milk Supply Pvt. Ltd. |
| 17. | 10635 | M/s. Veda Proman Pvt. Ltd. |
| 18. | 11275 | M/s. K. R. M. and Pär Shoes (India) Pvt. Ltd. |
| 19. | 10139 | M/s. Toyo Pen Company Pvt. Ltd. |
| 20. | 10136 | M/s. Cosmos Writing Instruments Pvt. Ltd. |
| 21. | 9033 | M/s. K. R. M. Chemicals Pvt. Ltd. |
| 22. | 24883 | M/s. Pantlaks Trading Pvt. Ltd. |
| 23. | 9702 | M/s. Ponnagiri Plantations Pvt. Ltd. |
| 24. | 24455 | M/s. Kaltronics Technologies Pvt. Ltd. |
| 25. | 11312 | M/s. Appeyan Investments Pvt. Ltd. |
| 26. | 11333 | M/s. Tristar Equine Trading Pvt. Ltd. |
| 27. | 9702 | M/s. Ponnagiri Plantations Pvt. Ltd. |
| 28. | 11092 | M/s. Super Bear Brushes Pvt. Ltd. |
| 29. | 11483 | M/s. Sanjith Investments Pvt. Ltd. |
| 30. | 9036 | M/s. Amber Impex Pvt. Ltd. |
| 31. | 31242 | M/s. Asian Institute of Hardware Technology Ltd. |
| 32. | 9425 | M/s. Lakshmi Temp Control Pvt. Ltd. |
| 33. | 9307 | M/s. Network Holdings Pvt. Ltd. |
| 34. | 9751 | M/s. Kavita Industrial Gages & Consultancy Pvt. Ltd. |
| 35. | 11180 | M/s. Mangala Sericulture Pvt. Ltd. |
| 36. | 10093 | M/s. Ginge, Murickan & Brow Engineer. Pvt. Ltd. |
| 37. | 9426 | M/s. Masonic Casteret Pvt. Ltd. |
| 38. | 9364 | M/s. Canara Tobacco Products Pvt. Ltd. |
| 39. | 10237 | M/s. Apeecee Consultants Pvt. Ltd. |
| 40. | 10189 | M/s. Manjunatha High-Tech Construction Pvt. Ltd. |
| 41. | 9583 | M/s. Uma Medi-Life Hospitals and Services Pvt. Ltd. |
| 42. | 8545 | M/s. Thermoplast Containers Pvt. Ltd. |

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies,

Bangalore, the 22nd August 2008

No. Suo-Moto/560(5)/KM/2008-09 - Notice is hereby given pursuant to the Sub-Section (5) of Section 360 of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies have this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved. :-

| Sl. No. | Co. No. | Name of the Company |
|---------|---------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 17497 | M/s. Sheron Pesticides Ltd. |
| 2. | 17514 | M/s. Ambica Irrigation Systems Ltd. |
| 3. | 17619 | M/s. Anruti Housing Development Corporation Ltd. |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|-------|---|
| 4. | 17670 | M/s. Odma India Ltd. |
| 5. | 17671 | M/s. Evox India Ltd. |
| 6. | 17673 | M/s. Trigen India Ltd. |
| 7. | 17704 | M/s. HBB Investment and Finance Ltd. |
| 8. | 17780 | M/s. Shree Shree Silks Ltd. |
| 9. | 17863 | M/s. Shree Arjunadurga Aqua Products Ltd. |
| 10. | 19397 | M/s. Karam Autofin Ltd. |

A. M. SRIDHARAN
Deputy Registrar of Companies
Karnataka